



यूएनजीए में भारत की प्रतिनिधि रुचिका कम्बोज ने पाकिस्तान के राजदूत की तरफ से दिए गये बयान को विध्वंसक बताया।

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

# एक्शन इंडिया

वर्ष: 15 अंक: 124 पृष्ठ: 08

RNI : UTTHIN/2009/31653



actionindiaddn@gmail.com

उत्तराखण्ड संस्करण

दिल्ली - हरियाणा - हिमाचल प्रदेश - उत्तराखण्ड



आदर्श विचार

जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें।  
- भगवत गीता



मन की बात

-जिस प्रकार केवल एक ही बीज पूरे जंगल को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त है।  
-विवेकानंद

राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा



रायपुर: तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लिखा कि आज अत्यंत पीड़ा के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे रही हूँ। साथ ही अपने पद से इस्तीफा दे रही हूँ। मैं लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ और वहीं अब मैं वहीं कर रही हूँ। अपने और देशवासियों के न्याय के लिए मैं निरंतर लड़ती रहूँगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर तीन पेज का इस्तीफा लिखा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को तीन पेज के लिखे इस्तीफा पत्र में कहा कि आदिकाल से स्थापित सत्य है कि धर्म का साथ देने वालों का विरोध होता है।

## 'विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा'

● सपा-बसपा के लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे चुनाव: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

चुनावी जनसभा

▶ जनता ही उनका परिवार है। मोदी-योगी आपके बच्चों के भविष्य के लिए जीवन खपा रहे हैं: पीएम मोदी

टीएम एक्शन इंडिया इटावा: भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के इटावा में एक चुनावी जनसभा में विपक्षी दलों के परिवारवाद पर कड़ा तंज कसा। उन्होंने कहा कि सपा-बसपा के लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि मोदी और योगी के पास बाल-बच्चे नहीं हैं। जनता ही उनका परिवार है। मोदी-योगी आपके बच्चों के भविष्य के लिए जीवन खपा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी



ने कहा कि साथियों, इन परिवारवादियों की विरासत क्या है? इनकी विरासत गाड़ी, बंगला और रसूख है। कोई इटावा, मैनपुरी और कन्नौज को अपनी जागीर मानता है तो कोई अमेठी, रायबरेली को अपनी विरासत मानता है। मोदी की विरासत गरीब को मिला मकान, शौचालय, बिजली, मुफ्त अनाज, मुफ्त इलाज है। मोदी की विरासत आपके बच्चों के लिए बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। कौन जानता


है कि 2047 में आपका ही बेटा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बने। शाही परिवार का ही बेटा सीएम पीएम बने, चाय वाले ने यह प्रथा तोड़ दी है। जैसे राजा राम मोहन राय के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कुप्रथा तोड़ दी। ऐसे ही भविष्य में मेरे बारे में कहा जाएगा कि एक चायवाले ने शाही परिवारों से ही सीएम पीएम बनने की कुप्रथा तोड़ी थी। अब कोई भी सीएम पीएम बन सकता है। तीन लोकसभा क्षेत्रों-

सीएम योगी ने पूरा उप्र बदल कर रख दिया: पीएम

भाजपा के वरिष्ठ नेता मोदी ने गुण्डाराज पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा राज में खाली प्लाट पर अपना झण्डा गाड़ दिया करते थे। सीएम योगी ने पूरा उप्र बदल कर रख दिया है। कन्नौज का इस आज दुनिया में पहुंच रहा है। जी-20 में आए दुनियाभर के लोगों को कन्नौज का इस ही भेंट किया था। आज यूपी में कानून का राज है: सीएम योगी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दो चरण सम्यन् हो चुके हैं। तीसरे चरण में सात और चौथे चरण में 13 मई को जनता जनार्दन भारत के भविष्य के लिए

इटावा, कन्नौज और मैनपुरी के लिए आयोजित इस जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण के दौरान इस पूरे क्षेत्र को भावनात्मक रूप से जोड़ते दिखे। प्रधानमंत्री

## पीओके खुद हो जाएगा आजाद: रक्षा मंत्री



टीएम एक्शन इंडिया नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) को लेकर कई बड़े दावे किए हैं। राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) पर अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा लेकिन इसे बलपूर्वक अपने कब्जे में करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि इसके लोग कश्मीर में विकास को देखने के बाद स्वयं इसमें शामिल होना चाहेंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में जमीनी स्थिति में काफी सुधार हुआ है और एक समय ऐसा आएगा जब केंद्र शासित प्रदेश में अफस्य (सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम) की आवश्यकता नहीं होगी।

'सीमा पार आतंकवाद को रोकना होगा'

रक्षा मंत्री ने जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान के छत्र युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि इस्लामाबाद को सीमा पार आतंकवाद को रोकना होगा। उन्होंने कहा कि वे भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं और हम ऐसा नहीं होने देंगे। पुलवामा आतंकवादी हमले के जवाब में फरवरी 2019 में भारत के युद्ध विमानों द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर पर हमला किए जाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में गंभीर तनाव पैदा हो गया है।

हालात बदले हैं, क्षेत्र में जिस तरह से आर्थिक प्रगति हो रही है और वहां जिस तरह से शांति लौटी है, मुझे लगता है कि पीओके के लोगों की ओर से यह मांग उठेगी कि उनका भारत के साथ विलय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें पीओके पर अपना कब्जा करने के लिए बल का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा क्योंकि लोग ही कहेंगे कि हमें भारत में विलय करना चाहिए।

## आरक्षण छीनना चाहते हैं पीएम मोदी: राहुल गांधी



टीएम एक्शन इंडिया हैदराबाद: भाजपा पर हमला बोलते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आरक्षण के खिलाफ हैं और लोगों से आरक्षण छीनना चाहते हैं। तेलंगाना में आदिलाबाद (एसटी) लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत निर्मल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि चल रहे आम चुनाव दो विचारधाराओं के बीच हो रहे हैं जिसमें कांग्रेस संविधान की रक्षा करने की कोशिश कर रही है। जबकि भाजपा-आरएसएस गठबंधन इसे और लोगों के अधिकारों को खत्म करना चाहता है। उन्होंने आगे कहा, "नरेन्द्र मोदी जी आरक्षण के खिलाफ हैं। वह आपसे

## 'अच्छे-बुरे आतंकवाद में नहीं हो सकता अंतर'

टीएम एक्शन इंडिया नई दिल्ली: भारत ने कहा है कि ऑनलाइन कट्टरपंथ वैश्विक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है। साथ ही इस बात को रेखांकित किया कि अच्छे आतंकवाद और बुरे आतंकवाद में अंतर नहीं किया जा सकता है। फ्रांस के ल्योन में नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के प्रमुख के हाल ही में संपन्न 19वें इंटरपोल सम्मेलन में सीबीआई निदेशक प्रवीण सुद ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व



किया। उन्होंने सम्मेलन में संगठित अपराध, आतंकवाद और चरमपंथी विचारधाराओं के बीच साठगांठ से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रकाश डाला।

सुद ने कहा, ऑनलाइन कट्टरपंथ वैश्विक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा की और कहा कि अच्छे आतंकवाद और बुरे आतंकवाद के बीच कोई अंतर नहीं किया जा सकता। सीबीआई की ओर से जारी बयान के अनुसार, इंटरपोल सम्मेलन में 136 देशों के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ने भाग लिया, जिसका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने किया।

दुष्प्रचार पर आमादा पाक, भारत जे दिया जवाब

टीएम एक्शन इंडिया नई दिल्ली: पहले राजधानी इस्लामाबाद में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने और उसके कुछ ही घंटे बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में पाकिस्तान के राजदूत ने अपने देश में कुछ संदिग्ध 'चरित्र' वाले लोगों की संदेहास्पद मौत के मामले को उठाते हुए भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश की है। भारत ने यूएनजीए में इसका करार जवाब दिया है। भारत ने पाकिस्तान का नाम लिये और उसे पूरे चरित्र को संदेहास्पद करार दिया है और आतंकवाद के मुद्दे पर भी उसे घेरा है।

## '400 सीटों के आंकड़ों की ओर बढ़ रहे हैं पीएम मोदी'

टीएम एक्शन इंडिया धर्मावरम (आंध्र प्रदेश): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए की एक रैली को आंध्र प्रदेश में संबोधित किया। अपने संबोधन में अमित शाह ने विश्वास जताया कि मौजूदा लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 400 सीटों के आंकड़े की ओर बढ़ेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि पहले दो दौर के मतदान के बाद भाजपा को मिली सीटों की संख्या 100 से अधिक हो जाएगी। रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पर आंध्र प्रदेश में प्रचारा और अपराध को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।



'राहुल गांधी देश का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त नहीं': भारतीय गठबंधन के सहयोगियों का मजाक उड़ाते हुए, शाह ने कहा कि राहुल गांधी सहित कोई भी भारतीय व्लांक

कटाक्ष

▶ पहले दो दौर के मतदान के बाद भाजपा को मिली सीटों की संख्या 100 से अधिक हो जाएगी: शाह

वाली सरकार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा, तेलुगु दशम पार्टी और अभिनेता पवन कल्याण के नेतृत्व वाली जनसभा ने गुंडों और अपराधियों के कथित शासन, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और रेत माफिया को समाप्त करने के लिए गठबंधन बनाया

## बांगाल में माताएं-बहनें सुरक्षित नहीं: जेपी नड्डा

टीएम एक्शन इंडिया कोलकाता: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बांगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रियो ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वह केंद्र में ऐसी सरकार चाहती हैं जो आतंकवाद को लेकर नरम रुख अपनाए। लोकसभा चुनाव को लेकर बांगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बहरमपुर में रैली को संबोधित करते हुए नड्डा ने दावा किया कि राज्य में ममता बनर्जी के नेतृत्व



वाली तृणमूल सरकार भ्रष्टाचार, जबरन वसूली, तुष्टीकरण और भेदभाव के लिए जानी जाती है। उन्होंने कहा कि हम मजबूत सरकार की बात करते हैं, लेकिन ममता बनर्जी 'मजबूर सरकार' चाहती हैं।

## संदेशखाली प्रकरण के पीछे भाजपा का हाथ: ममता

टीएम एक्शन इंडिया कोलकाता: पश्चिम बांगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को भाजपा पर राज्य को बदनाम करने के लिए संदेशखाली की घटनाओं को अंजाम देने का आरोप लगाया, जहां तृणमूल कांग्रेस नेताओं के खिलाफ यौन शोषण के आरोप सामने आए हैं। टीएमसी ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें दावा किया गया कि यह फुटेज उसके रुख की पुष्टि करता है कि संदेशखाली प्रकरण के पीछे भाजपा का हाथ था।



बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट किया, "मैं लंबे समय से कह रही थी कि भाजपा संदेशखाली घटना को अंजाम देकर बांगाल की छवि खराब करने की कोशिश कर रही

हमला बोला

▶ सब अधिकारी की थी प्लानिंग, टीएमसी ने जारी किया रिस्टंग वीडियो, ममता बनर्जी हुई हमलावर

है।" उन्होंने पोस्ट में कहा, "रिस्टंग ऑपरेशन में 'बांगला-बिरोधियों' का असली चेहरा सामने आया है। उन्होंने मेरी माताओं और बहनों की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। 13 मई को

राणाघाट के लोग यह सुनिश्चित करेंगे कि बांगला-बिरोधियों को बांगाल से बाहर कर दिया जाए।" कथित वीडियो में एक व्यक्ति ने दावा किया कि वह गंगाधर कयाल है, जो उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में भाजपा मंडल अध्यक्ष है, जिसे यह कहते हुए सुना गया कि पश्चिम बांगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता "सुवेदु अधिकारी पूरी साजिश के पीछे हैं।" हालांकि, पीटीआई ने टीएमसी द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की है।

## भारत-मालदीव ने सैन्य कर्मियों की वापसी की समीक्षा की

टीएम एक्शन इंडिया नई दिल्ली: भारत और मालदीव ने द्वीप देश से भारतीय सैन्यकर्मियों को बदलने की चल रही प्रक्रिया की समीक्षा की। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जु ने अपने देश से भारतीय सैनिकों की वापसी के लिए 10 मई की समय सीमा तय की है। भारत हिंद महासागर में स्थित द्वीपसमूह में तीन विमानन प्लेटफॉर्मों का संचालन कर रहे कुछ सैन्यकर्मियों को पहले ही

वापस बुला चुका है। सैन्यकर्मियों का स्थान तकनीकी विशेषज्ञों ने ले लिया है। नई दिल्ली में शुक्रवार को दोनों पक्षों की द्विपक्षीय उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की चौथी बैठक हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित व्यापक मुद्दों पर अपनी चर्चा जारी रखी। रक्षा क्षेत्र, द्विपक्षीय व्यापार व निवेश को बढ़ाने का प्रयास और विकास सहयोग परियोजनाएं प्रमुख रहीं।

## 'रोहित की आत्महत्या पर राजनीति के लिए माफी मांगें राहुल'

टीएम एक्शन इंडिया पुणे: केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या का 'राजनीतिकरण' करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। रोहित ने वर्ष 2016 में आत्महत्या की थी। पुणे में पत्रकारों से बात करते हुए सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्य में अदालत में बलोजर रिपोर्ट दायर किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रोहित दलित नहीं था। उसके पास एससी (अनुसूचित जाति) का फर्जी प्रमाण पत्र था। रोहित को डर था कि उसकी 'वास्तविक पहचान'



उजागर हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस ने सार्वजनिक रूप से मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश की थी। संसद में राहुल गांधी ने बयान दिया कि रोहित पर दबाव डाला



गया। राहुल को भाषणों के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए: सीतारमण ने कहा, राहुल को उस समय लोकसभा में दिए गए अपने भाषणों

मांग


▶ नैरेटिव बनाया गया कि सरकार छात्रों और अनुसूचित जाति के खिलाफ है: वित्त मंत्री सीतारमण

को सुनना चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्हें एससी समुदाय से भी माफी मांगनी चाहिए जिनका उन्होंने दुरुपयोग किया। यह दलित मुद्दा नहीं था, लेकिन (राहुल ने) इसे दलित मुद्दे की तरह बना दिया। 'मोहब्बत की दुकान' चलाने की बात कहने वाले 'टाक्सिक दुकान'

चला रहे थे। नैरेटिव बनाया गया: बाद में डेक्कन कालेज में 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण को साकार करने में उच्च शिक्षा की भूमिका पर छात्रों के साथ बातचीत करते हुए सीतारमण ने दावा किया कि नैरेटिव बनाया गया कि सरकार छात्रों और अनुसूचित जाति के खिलाफ है। यह गलत नैरेटिव स्वार्थी समूहों, स्वयंसेवक वामपंथी उदारवादी समूह, विपक्ष के नेताओं ने बनाया। उन्होंने कहा, जिस समस्या को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जा सकता था, उसे सड़कों पर फसीदा गया।

## 'बिना सबूतों के आरोप लगाता है कनाडा'

टीएम एक्शन इंडिया नई दिल्ली: कनाडा में खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में तीन भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है। अब इसपर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सामने आया है। जयशंकर ने कहा कि कनाडा में खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर जो कुछ हो रहा है, वह ज्यादातर उनकी आंतरिक राजनीति के कारण है।



सवाल का जवाब दे रहे थे कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में कनाडा पुलिस तीनों आरोपियों का भारत सरकार से लिंक होने की जांच कर रही है। जयशंकर ने कहा कि भारत कनाडाई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए तीन भारतीयों के बारे में जानकारी साझा करने का इंतजार

आरोप खारिज

▶ निज्जर की हत्या पर जो कुछ हो रहा है, वह उनकी आंतरिक राजनीति के कारण प्रयास करार दिया

करेगा। मंत्री ने कहा कि उन्होंने गिरफ्तारियों की खबरें देखी हैं और संदिग्ध स्पष्ट रूप से किसी प्रकार की गिरौह पृष्ठभूमि के भारतीय हैं और इसपर पुलिस के अपडेट का इंतजार करना होगा। भारत में विशेष रूप से पंजाब में संगठित अपराध को कनाडा से संचालित होने की अनुमति दी जा रही है, जिसपर रोक होनी चाहिए।

# मुख्यमंत्री ने केदारनाथ डोली यात्रा के साथ चलने वाली भंडारा टीम को किया रवाना

## चारधाम यात्रा

10 मई को अक्षय तृतीया पर केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा।



केदारनाथ धाम तक चलने वाली इस पवित्र यात्रा में अनेक भक्तगण शामिल होते हैं, उनके लिए आयोजित किया जा रहा यह भंडारा सराहनीय कदम है। समस्त



सेवादायकों को कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं। बाबा केदारनाथ डोली यात्रा के साथ चलने के लिए मुख्य सेवक 5 से 10 मई तक मुख्य पड़ावों पर

कपाट खुलने से पहले पांच मई को बाबा केदार की पंचमुखी भोगमूर्ति चल विग्रह उत्सव डोली यात्रा पंचकेदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से केदारनाथ के लिए रवाना होगी। यात्रा गुप्तकाशी से फाटा होते हुए केदारनाथ धाम पहुंचेगी। पिछले साल की तरह इस बार भी पांच से दस मई तक मुख्य सेवक का भंडारा कार्यक्रम चलेगा। उखीमठ, गुप्तकाशी, फाटा, गीरीकुंड और केदारनाथ में भंडारे की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस दौरान साफ-सफाई के साथ ही पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान ना हो इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है।

# चारधाम यात्रा के लिए सुंदरकांड आयोजित, मंत्री जोशी ने किया प्रतिभाग

## सुंदरकाण्ड पाठ

राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं।



देहरादून/टीएम एक्शन इंडिया कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रविवार को गढ़ीकेट स्थित श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर के सत्संग भवन में शुभमंगल चारधाम यात्रा (उत्तराखण्ड सेवा समिति) ने चारधाम यात्रा के निर्विघ्न संचालन के लिए आयोजित संगीतमय सुंदरकाण्ड पाठ के आयोजन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कैबिनेट मंत्री जोशी ने आगामी चार धाम यात्रा के सफल संचालन हेतु आयोजित सुंदर कांड पाठ के लिए

आयोजकों को आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाबा केदार धाम के दौरे के बाद चार धाम यात्रा हर साल लाखों की संख्या में रिकॉर्डटोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। राज्य सरकार ने चार धाम यात्रा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। उन्होंने इस वर्ष चार धाम यात्रा में कोई त्रासदी और घटना न हो इसके लिए उन्होंने बजरंग बली और श्री राम भगवान से चार धाम यात्रा की मंगलकामना की प्रार्थना की।

## आईडीबीआई बैंक ने लाभ में 55 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की

देहरादून/टीएम एक्शन इंडिया आज आईडीबीआई बैंक ने वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही के लिए अपने त्रैमासिक परिणाम जारी किए। बैंक का शुद्ध लाभ 55 प्रतिशत साल-दर-साल बढ़कर अब तक के सबसे ऊंचे स्तर ₹5,634 करोड़ पर पहुंच गया और वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में 12 प्रतिशत की तिमाही-दर-तिमाही वृद्धि के साथ ₹1,628 करोड़ हो गया। बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9,592 करोड़ रहा। एनआईएएम 4.93 प्रतिशत दर्ज किया गया, और शुद्ध ब्याज आय साल-दर-साल 12 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 3,688 करोड़ रही।

# चारधाम यात्रा: धामों के कपाट खुलने के दिन की हेलीकाप्टर से जायेगी पुष्पवर्षा

## निर्देश

चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां 10 मई तक हर हाल में पूरी हों, यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाएं



देहरादून/टीएम एक्शन इंडिया धामी सरकार 10 मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा की सभी तैयारियों को लेकर मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष की चारधाम यात्रा के अनुभवों से सीख लेकर यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के निर्देश दिए हैं। धामों के कपाट खुलने के दिन हेलीकाप्टर से पुष्प वर्षा की जायेगी। इस बार भी यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है।

रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखण्ड सदन, नई दिल्ली से वरुचुअल रूप से बाबा केदारनाथ डोली यात्रा के साथ चलने वाले 'मुख्य सेवक के भंडारा कार्यक्रम' के 300 सेवादायकों की टीम को मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय, देहरादून में हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने बाबा केदारनाथ डोली यात्रा के

उत्तराखण्ड, देशवासियों, भक्तगणों, श्रद्धालुओं, तीर्थयात्रियों के लिये होता है। इस अवसर पर हम सब लोग अपने-अपने तरीके से इस पुण्य में सहभागी हो रहे हैं। इस पुण्य में भण्डारे के आयोजन की अपनी अलग ही भूमिका है, जिसके लिये उन्होंने इस आयोजन में शामिल टीम लीडर हिमांशु चमोली सहित महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड आदि के युवाओं को हार्दिक बधाई व शुभकामना दी। उन्होंने इस मौके पर पिछले वर्ष आयोजित किये गये हनुम्वर्य सेवक के भंडारा कार्यक्रम का उल्लेख करते हुये कहा कि पिछले वर्ष इस भण्डारा कार्यक्रम का आयोजन बहुत ही शानदार रहा। हजारों श्रद्धालुओं, तीर्थयात्रियों ने इस

भण्डारे का प्रसाद ग्रहण किया, जिसके सफल आयोजन का संदेश पूरे देश में गया। उन्होंने कहा कि हमारी चारधाम यात्रा सुगम और सुरक्षित हो इसके लिये पेयजल, परिवहन, विद्युत, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, पुलिस, यातायात, लोक निर्माण आदि विभागों की समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया है कि चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां आगामी 10 मई तक हर हाल में पूरी हों, जिससे यहां आये श्रद्धालु अच्छा संदेश लेकर जाएं। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा हमारे लिये चुनौती भी है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या निरन्तर बढ़ रही है। इस बार भी यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है।

## संक्षिप्त खबरें

### माता पिता को उचित टीकाकरण कार्यक्रम का पालन करके अपने बच्चों की सुरक्षा करनी चाहिए

देहरादून/टीएम एक्शन इंडिया इस बार विश्व टीकाकरण सप्ताह के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन के टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम की 50वीं वर्षगांठ भी मनाई गई। यह मौल का पथर् वैश्विक टीकाकरण के प्रयासों की विरासत और पिछले पांच दशक में टीकाकरण के माध्यम से बचाए गए अनगिनत जीवन और संरक्षित समुदायों की याद दिलाता है। भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से 90 प्रतिशत से अधिक बच्चों तक टीकाकरण का विस्तार करने में सफलता मिली है। हालांकि उम्र के पहले वर्ष में कवरेज अधिक है लेकिन पहले जन्मदिन के बाद से जूंप-आउट दरें बढ़ जाती हैं। इसका नतीजा यह है कि देश में बड़ी संख्या में बच्चों का आंशिक टीकाकरण हो पाता है। टीकाकरण के महत्व पर बोलते हुए, मेहर अस्पताल वैश्व नर्सिंग होम, देहरादून के बाल रोग विशेषज्ञ और आईसीयू विशेषज्ञ (इंटेंसिविस्ट), एमबीबीएस, एमडी, डॉ. हंस वैश्व का कहना है बच्चे बीमारियों की चपेट में जल्दी आते हैं, इसलिए उनको स्वस्थ रखने के लिए समय पर टीकाकरण करवाना बहुत जरूरी है। सही समय पर टीकाकरण करवाकर माता-पिता न सिर्फ अपने बच्चों को बीमारियों से बचाते हैं बल्कि उनका दीर्घकालिक स्वास्थ्य भी सुनिश्चित करते हैं। माता-पिता को टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में अपने डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए।

## पीआरएसआई दून चैप्टर के अध्यक्ष बने बिजारनिया, बोले-योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने में सेतु का काम करेगा चैप्टर



देहरादून/टीएम एक्शन इंडिया पीआरएसआई देहरादून चैप्टर की रवि बिजारनिया को आम सभा सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। वे वर्तमान में सूचना विभाग में उपनिदेशक पद पर कार्यरत हैं। इसी प्रकार अनिल सती को सचिव और सुरेश चन्द्र भट्ट को कोषाध्यक्ष के साथ ही डॉ. एएन त्रिपाठी उपाध्यक्ष, राकेश डोभाल संयुक्त मंत्री के पद पर फिर से चुना गया है।

इस अवसर पर पीआरएसआई देहरादून चैप्टर के नव नियुक्त अध्यक्ष रवि बिजारनिया ने कहा कि पीआरएसआई संगठन सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए सेतु का काम करेगा। इसके लिए सूचना तकनीक और सोशल मीडिया का विशेष रूप से उपयोग किया जायेगा। लोकहित और सामाजिक सरोकार से जुड़े विषयों पर नियमित तौर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उत्तराखण्ड की संस्कृति, पर्यटन, व्यंजन, को पीआरएसआई के प्रकाशनी नेटवर्क के माध्यम से प्रचारित करने का प्रयास किया जायेगा। श्री बिजारनिया ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि

## वनाग्नि का दौर जारी, सात मई से बूढ़ाबादी और झुकड़ की संभावना

देहरादून/टीएम एक्शन इंडिया राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सड़कों और वनाग्नि के बारे में जानकारी दी गई है। जहां देहरादून में व्यवस्थाएं ठीक हैं वहीं पिथौरागढ़ में रावल गांव वन पंचायत में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई है। वन विभाग की टीम वहां पहुंच चुकी है। इसी तरह पौड़ गढ़वाल के सिविल सोयम वन प्रभाग के अंतर्गत थपलियाल गांव में वनाग्नि की घटना की जानकारी मिली है। टिहरी वन प्रभाग में सात घटनाएं हुई हैं जहां नियंत्रण टीम पहुंच चुकी है। परिचालन केंद्र ने टिहरी बांध के जल स्तर के बारे में बताया है कि अधिकतम 830 मीटर जल स्तर के स्थान पर 742.82 मीटर तक जल स्तर है।

## सेटी भी हुए मेयर पद की दौड़ में शामिल

### निवारण

जनता की कोई भी मूलभूत समस्या हो उसके निवारण के लिए प्रयास किया जाता है: सुनील सेठी



सेठी ने बीते दिनों उत्तराखण्ड के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर उन्हें अवगत करवाया कि चुनाव से पहले सिर्फ छह महीने नहीं, बल्कि पूरे पांच वर्ष जनता के हर

विषय पर हर समस्या पर जनहित में धरातल पर कार्य किया जाता है। जनता की कोई भी मूलभूत समस्या हो उसके निवारण के लिए प्रयास किया जाता है। उन्होंने लगातार जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को जाना है। पिछले पांच वर्ष कांग्रेस के कार्यकाल में जनता को नगर निगम से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वह जनता को नहीं मिली। इसके लिए हम प्रयासरत हैं कि आगामी कार्यकाल में जनता को विशेष सुविधाएं दिलायी जायें। जिस प्रकार देश में मोदी जी नए युवा चेहरों पर विश्वास जताकर मौका दे रहे हैं, विश्वास है कि पार्टी मुझे मौका देगी।

## भाजपा ने स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून की दुर्दशा की: जोशी

### जनसम्पर्क

जोशी ने कहा कि देहरादून शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर दुर्दशा कर दी गयी है

देहरादून/टीएम एक्शन इंडिया प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और वॉर रूम के चेयरमैन नवीन जोशी ने रविवार को रायपुर क्षेत्र के अन्तर्गत जयपुर में जनसंवाद से जनसमर्थन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानीय लोगों से जनसम्पर्क कर नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस के लिए समर्थन मांगा।

जोशी ने कहा कि देहरादून शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर पूरे देहरादून की दुर्दशा कर दी गयी है,



जगह जगह सड़कें और नालियां खोदकर जनमानस का जीना दूभर कर दिया है। लेकिन भाजपा पूरे

और न ही लोगों का उत्थान कर पाये। उन्होंने कहा कि अगर देहरादून में कांग्रेस का मेयर बनता है तो देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के साथ साथ सभी क्षेत्रों का चहुंमुखी विकास होगा और लोगों को काम धंधे भी मिलेंगे। बरसात का सीजन शुरू होने वाला है और पिछले बार के ड्यू के प्रकोप से पूरा देहरादून प्रभावित रहा। लेकिन इनके द्वारा इसके उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं किया गया। इस अवसर पर प्रदेश प्रवक्ता आशीष नैयटियाल, गोपाल सिंह गडिया, गौतम बाली, नवीन ममगाई अंजु, मंजू देवी, समर्थ, राजेश, अनिल यादव, राहुल सूद, अजय कुमार, अभिषेक कुमार ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

## वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने दिए कड़े निर्देश

देहरादून/टीएम एक्शन इंडिया वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं ने सरकार तथा वन विभाग के माथे पर बल ला दिया है। दोनों ओर से इस अव्यवस्था पर अंकुश लगाने के प्रयास हो रहे हैं। लेकिन वनाग्नि बुझ नहीं पा रही है। प्रदेश में बीते कई दिनों से वनाग्नि की घटनाओं ने दिल दहला कर रख दिया है। इससे सैकड़ों हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं, जिसमें कई लोगों की मौत भी हो चुकी। लेकिन अब तक वनाग्नि की घटनाओं पर पूर्णतया अंकुश नहीं लग पाया है। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक जंगलों की आग आज दिन रफ्तार पकड़ रही है। हालांकि शासन प्रशासन लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रहा है।



लेकिन यह नाकाफी साबित हो रहा है। इसी संदर्भ में प्रमुख वन संरक्षक

वन्य जीव उत्तराखण्ड समीर सिन्हा ने माना कि बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं के चलते वन्य जीव भी

खतरे की जद में आने लगे हैं हालांकि प्रदेश में अब तक वन्य जीवों की छति की कोई सूचना नहीं है लेकिन अगर जंगलों की आग ऐसी ही बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं जब वन्य जीवों के मौत की खबर भी सुर्खिया बटोरने लगेगी। प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव ने कहा की प्रदेश में वनाग्नि की घटनाएं बीते कई दिनों से जरूर देखने को मिल रही है लेकिन अब तक वन्य जीवों के नुकसान का कोई भी आंकड़ा दर्ज नहीं हुआ है हालांकि जिन क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनाएं दर्ज हो रही है उन क्षेत्रों में वन्य जीवों को सुरक्षा देना है कि जल की पर्याप्त उपलब्धता रहे ताकि वनाग्नि की घटनाओं के चलते वन्य जीवों को जल की

पर्याप्त मात्रा मिल सके साथ ही इस दौरान वन्यजीवों के संरक्षण के लिए तमाम कदम भी उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्य सचिव को दूरभाष पर निर्देश दिए हैं कि जिलाधिकारियों को एक सप्ताह तक प्रतिदिन वनाग्नि की निरंतर मॉनिटरिंग करने के निर्देश तत्काल जारी किए जाएं। उन्होंने जिलाधिकारियों को सभी प्रकार के चारों को जलाने पर तत्काल प्रभाव से एक सप्ताह के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही शहरी निकायों को भी अपने ठोस कूड़े की वन्या वनों के आसपास जलाने पर प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं।

## उत्तराखण्ड में तपिश के बीच बारिश दिलाएगी राहत, झोंकेदार हवाओं को लेकर अलर्ट

देहरादून/टीएम एक्शन इंडिया उत्तराखण्ड में तपिश के बीच बारिश राहत बनकर बरस सकती है। मौसम विभाग का कहना है आज और कल प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। साथ ही झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। इसके लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है।



मई का महीना शुरू हो चुका है। ऐसे में तपिश भी बढ़ने लगी है, जिससे मैदानी इलाकों में लोग गर्मी का सामना करने लगे हैं। इसके अलावा वनाग्नि की घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। ऐसे में अगर बारिश होती है तो कुछ हद तक वनाग्नि की घटनाओं पर लगाम लग

सकती है। उत्तराखण्ड मौसम विभाग का कहना है कि आज उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान बिजली भी चमक सकती है। अन्य जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक आज देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत और उधमसिंह नगर जिले में दिन के समय कहीं-कहीं झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो जारी किया है। देहरादून में मौसम के पूर्वानुमान की बात करें तो आज आसमान मुख्यतः साफ रहने से लेकर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।

# मुख्यमंत्री धामी ने गढ़वाल राइफलस के गौरवशाली इतिहास को किया याद

## स्थापना दिवस

► गढ़वाल राइफलस की वीरता के हुए 137 गौरवशाली वर्ष, जिसका गीत है- 'बढ़े चलो, गढ़वालियों बढ़े चलो'



सैन्य दल है। 1891 में दो-तीन गोरखा रेजिमेंट की दो कंपनियों से एक गोरखा पलटन दो-तीन क्वीन अलेक्जेंडर आन (बटालियन का नाम) खड़ी की गई और शेष बटालियन को दोबारा नए बंगाल इन्फैंट्री की 39वां गढ़वाल रेजिमेंट के नाम से जाना गया। बैज से गोरखाओं

की खुशखरी हटाकर उसका स्थान फीनिक्स बाज को दिया गया। इसने गढ़वाल राइफलस को अलग रेजिमेंट की पहचान दी। 1891 में फीनिक्स का स्थान माल्टीज क्रॉस ने लिया। इस पर "द गढ़वाल राइफलस रेजिमेंट" अंकित था। बैज के ऊपर पंख फैलाए बाज थे, यह पक्षी शुभ माना जाता था। इससे गढ़वालियों की सेना में अपनी पहचान का शुभारंभ हुआ। आज गढ़वाल राइफलस की दो गढ़वाल से 22 गढ़वाल तक यूनिट है। जोशीमठ में स्थाई रूप से गढ़वाल स्काउट्स है। 121 इको व 127 इको बटालियन भी है। साथ ही गढ़वाल राइफलस के 14 आरआर, 36 आरआर व 48 आरआर में अपनी सेवाएं देते हैं। दो प्रादेशिक सेना भी गढ़वाल राइफलस के तहत है। लैंसडाउन में गढ़वाल राइफलस का ट्रेनिंग सेंटर है, जिसमें अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा कम्पनी में रिजुटमेंट होती है। वहीं, एक कंपनी में रिजुट कोटद्वार में भी रहते

हैं। हालांकि सभी टेस्ट लैंसडाउन में ही सम्पन्न होते हैं, जिसके बाद यहाँ कसम परेड होती है, तब जाकर एक रंगरूट जवान के रूप में तैयार होता है। वीर गब्बर सिंह नेगी, दरवान सिंह, जसवंत सिंह रावत, लाट सुबेदार बलभद्र सिंह, चन्द्र सिंह गढ़वाली, अशोक चक्र विजेता भवानी दत्त जोशी आदि अनेकों वीरों ने गढ़वाल राइफलस के मान सम्मान को अपनी वीरता श्रुता से पूरी दुनिया में बढ़ाया है। नूनागं हो या टीथवाल हो, द्रास हो या बटालिक आदि युद्ध क्षेत्रों में गढ़वाली वीरों की वीरता दशकों से जीवंत रूप में मौजूद है।

क्षमता की असल परीक्षा प्रथम विश्व युद्ध में हुई जब गढ़वाली ब्रिगेड ने "न्यू शैपल" पर बहुत विपरीत परिस्थितियों में हमला कर जर्मन सैनिकों को खदेड़ दिया था। 10 मार्च 1915 के इस घमासान युद्ध में सिपाही गब्बर सिंह नेगी ने अकेले एक महत्वपूर्ण निर्णायक व सफल भूमिका निभाई। कई जर्मन सैनिकों को सफाया कर खुद भी वीरगति को प्राप्त हुए। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के बीच में गढ़वाल राइफलस ने अपनी अहम भूमिका निभाई। ऐसे ही 1962 का भारत-चीन युद्ध, 1965 और 1971 का भारत-पाक युद्ध, शांति सेना द्वारा ऑपरेशन पवन (1987-88) उसके बाद 1999 में पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध में गढ़वाल राइफलस के जवानों ने अपनी वीरता से दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए।

## चाहिए, गढ़वालियों के खून में उबाल चाहिए-

"बढ़े चलो, गढ़वालियों बढ़े चलो" गीत के साथ देश दुनिया को अपना पराक्रम दिखाने वाले दुनिया की सबसे बड़े सैनिक परिवार की नाँव आज ही रखी गई थी। जंग में जोशीले नारे "ब्रदी विशाल लाल की जय" उद्घोष के साथ वीर सैनिकों में एक जोश भर जाता है। आज स्थापना दिवस पर गढ़वाल राइफलस सेंटर के रेजिमेंटल मंदिर में पूजा अर्चना के साथ विधिवत सैनिकों द्वारा रेजिमेंट की खुशहाली के लिए पूजा की जाती है। उसके बाद सेंटर के सभी सैनिक वीर मेमोरियल, युद्ध स्मारक में जाकर मेमोरियल में पुष्प चक्र भेंट कर शहीद सैनिक को याद किया जाता है। सेना के उच्चाधिकारियों व गढ़वाल राइफलस के वीर सैनिकों द्वारा शौर्य गाथा का उद्घोष किया जाता है।

## गढ़वाल राइफलस रेजिमेंट युद्ध का नारा है "ब्रदी विशाल लाल की जय"-

उत्तराखंड में स्थित गढ़वाल राइफलस रेजिमेंट का युद्ध नारा है "ब्रदी विशाल लाल की जय"। गढ़वालियों की युद्ध

## तलवार चाहिए न कोई ढाल

## संक्षिप्त खबरें

### आईडीबीआई बैंक लिमिटेड झ चौथी तिमाही और वित्तीय वर्ष 2024 के वित्तीय परिणाम

देहरादून/टीएम एक्शन इंडिया  
आज आईडीबीआई बैंक ने वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही के लिए अपने त्रैमासिक परिणाम जारी किए। बैंक का शुद्ध लाभ 55 प्रतिशत साल-दर-साल बढ़कर अब तक के सबसे ऊँचे स्तर 75.634 करोड़ पर पहुँच गया और वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में 12 प्रतिशत की तिमाही-दर-तिमाही वृद्धि के साथ 71,628 करोड़ हो गया। बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9,592 करोड़ रहा। एनआईएम 4.93 प्रतिशत दर्ज किया गया, और शुद्ध व्याज आय साल-दर-साल 12 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 3,688 करोड़ रही। 2024 की चौथी तिमाही में जमा की लागत 4.48 प्रतिशत थी, जो 2023 की चौथी तिमाही में 3.71 प्रतिशत थी। सीआरएआर 182 बीपीएस की साल-दर-साल वृद्धि के साथ 22.26 प्रतिशत रहा। संपत्ति पर रिटर्न (आरओए) 2024 की चौथी तिमाही के लिए 39 बीपीएस से 1.82 प्रतिशत दर्ज किया गया, जो 2023 की चौथी तिमाही के लिए 1.43 प्रतिशत था। इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) 19.50 प्रतिशत रहा (साल-दर-साल 335 बीपीएस की वृद्धि के साथ)। शुद्ध एनपीए घटकर 0.34 प्रतिशत हो गए, जो 31 मार्च, 2023 को 0.92 प्रतिशत थे। सकल एनपीए घटकर 4.53 प्रतिशत हो गए, जो 31 मार्च, 2023 को 6.38 प्रतिशत थे। पीसीआर 99.09 प्रतिशत रहा, जो 31 मार्च, 2023 को 97.94 प्रतिशत था।

### अस्थमा रोग को नजरअंदाज न करें लोग : डॉ. अनुराग

देहरादून /टीएम एक्शन इंडिया  
भारत के हर शहर में बढ़ते प्रदूषण के कारण अधिक संख्या में भारतीय अस्थमा से प्रभावित हो रहे हैं। अस्थमा फेफड़ों की एक पुरानी बीमारी है जो सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करती है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। भारत में बढ़ते प्रसार के बावजूद, अस्थमा से पीड़ित लोगों के बीच अभी भी बहुत सारे परिवार और मिथक हैं। शहर के प्रसिद्ध पल्मोनोलॉजिस्ट और दून मेडिकल कॉलेज के एचओडी, डॉ. अनुराग अग्रवाल ने अस्थमा रोगियों द्वारा लक्ष्यों में कमी के बाद दवाई छोड़ने और निरंतर जाँच के लिए न आने पर अपनी चिंताएँ साझा कीं। - विश्व अस्थमा दिवस पर डॉ. अग्रवाल ने अपनी चिंताएँ साझा करते हुए कहा कि उन्होंने अपने अनुभव में देखा है कि अस्थमा का प्रचलन लगातार बढ़ रहा है। देहरादून में बहुत सारे निर्माण कार्य, वाहनों की आवाजाही को देखा जा सकता है जो कुल मिलाकर वायु गुणवत्ता और फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसका प्रचलन विशेष रूप से युवाओं और व्यक्तियों में बढ़ रहा है। हालाँकि, सबसे चिंताजनक बात यह है कि अधिकांश मरीज अस्थमा के लक्षणों में कमी के बाद दवाई लेना छोड़ देते हैं। हमें मरीजों को यह समझाना होगा कि अस्थमा को ठीक नहीं किया जा सकता या इलाज नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे केवल सही हस्तक्षेप के माध्यम से बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है, डॉ. अग्रवाल ने साझा करते हुए कहा।

उन्होंने आगे कहा कि बहुत से मरीज 6 महीने से लेकर लगभग एक साल तक अस्थमा के लक्षणों को नजरअंदाज करते हैं। हमें अस्थमा के रोगियों का पहली बार निदान करने में एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। कई मरीजों को पता ही नहीं होता कि वह कितने समय से ऐसे लक्षणों का सामना कर रहे हैं। मरीजों को यह समझने की जरूरत है कि अस्थमा के शुरूआती लक्षण जैसे सांस लेने में तकलीफ, घरघराहट और सीने में जकड़न को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और शुरूआती उपचार से जीवन की गुणवत्ता में मदद मिलती है, डॉ. अग्रवाल ने कहा कि अस्थमा के लिए अनुवर्ती परामर्श के बारे में पूछे जाने पर डॉ. अग्रवाल ने कहा कि कई मरीज अस्थमा के लिए अनुपरीक्षण को प्राथमिकता नहीं देते हैं। डॉ. अग्रवाल ने कहा कि अस्थमा के बारे में जागरूकता और शिक्षा की कमी के कारण, मरीज अनुवर्ती परामर्श पसंद नहीं करते हैं। अस्थमा की व्यापकता व्यापकता के संदर्भ में, यह अनुमान लगाया गया है कि ग्लोबल बर्ड्स ऑफ डिजीज (जीबीडी, 1990-2019) के अनुसार, भारत में 34.3 मिलियन अस्थमा रोगी हैं, जो वैश्विक बोज़ का 13.09 प्रतिशत है। इसके अलावा, भारत विश्व स्तर पर अस्थमा से संबंधित 42 प्रतिशत मौतों में योगदान देता है। इसके अतिरिक्त, अस्थमा के कारण विकलांगता-समायोजित जीवन वर्ष के मामले में देश दुनिया में पहले स्थान पर है, जो संपूर्ण स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर इस बीमारी के पर्याप्त प्रभाव पर प्रकाश डालता है।

### युवक की चाकू से गोदकर हत्या, पुल के नीचे मिला शव

हरिद्वार/टीएम एक्शन इंडिया  
एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। युवक का शव सोलानी नदी के पुराने पुल के नीचे पड़ा मिला। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस को रुड़की सोलानी नदी के पुराने पुल के नीचे एक युवक का शव पड़ा होने की सूचना मिली। इस पर सिविल लाइंस कोतवाली प्रभारी आरके सकलानी और एसएसआई अभिनव शर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जहां एक जींस टी शर्ट पहने युवक का शव पड़ा था।

### छात्रों को दिया मृदा और उर्वरता का प्रशिक्षण

मृदा परीक्षण  
► मृदा परीक्षण की जानकारी देने के लिए चमोली के दो केंद्रीय विद्यालयों का चयन किया गया था।

गोपेश्वर/टीएम एक्शन इंडिया  
चमोली जिले के कृषि विभाग की ओर से जोशीमठ स्थित केंद्रीय विद्यालय के छात्रों को मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही छात्रों को स्थलीय निरीक्षण कराके मृदा नमूना एकत्रीकरण की व्यावहारिक जानकारी भी दी गई। मुख्य कृषि अधिकारी वीपी मौर्य ने बताया कि खरीफ फसलों के लिए

## गीता आश्रम के संस्थापक व्यास आनंद का 32वां निर्वाण दिवस मनाया गया

### निर्वाण दिवस

► इस अवसर पर अखंड रामचरितमानस पाठ, गीता, गायत्री जप, यज्ञ, भजन और कीर्तन संपन्न हुए।



परमार्थ निकेतन के महामंडलेश्वर स्वामी असंग आनंद सरस्वती ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अध्यक्षता करते हुए कहा कि महामंडलेश्वर स्वामी गीता के महान प्रचारक थे। उन्होंने देश-विदेश में गीता का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने गीता प्रचार के लिए गीता आश्रम की स्थापना की। भारत माता मंदिर हरिद्वार के महंत और महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद गिरी ने कहा कि स्वामी महान

कर्मयोगी, तपस्वी और संत थे। उन्होंने अनेक ख्यातिप्राप्त संतों का मार्गदर्शन किया। श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले अन्य विशिष्ट महानुभावों में स्वामी सर्वात्मनंद सरस्वती, स्वामी जगदीश आनंद, महंत कन्हैया दास, ऋषिकेश नगर निगम के निवर्तमान महापौर अनीता मंगगाई, भागवत प्रवक्ता कमलेश चकरी ताऊजी, पंडित दिव्यानंद शास्त्री, इंद्र प्रकाश अग्रवाल, समाजसेवी राजकुमार, राजू, शकुंतला राजपूत, माधव अग्रवाल, गीता भवन के प्रबंधक गौतम, महामंडलेश्वर स्वामी दिव्या भारती, स्वामी निरंजन, योगाचार्य विष्णु पाणिग्रीही योगी, चेतन धवन, कृष्णधर मिश्रा, अरविंद नेगी, अश्विनी गुप्ता, राजनरेश शर्मा, गिरीश शुक्ला, प्रमिला शाह, डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल, चंद्र मित्र शुक्ला, त्रिभुवन उपाध्याय, प्रेम प्रसाद, पंडित उदय राम, नीरज शास्त्री, शिवकुमार चतुर्वेदी, रामकुमार तिवारी आदि साधक संत और आश्रम के कार्यकर्ता गण उपस्थित थे। भानुमित्र शर्मा ने कार्यक्रम का संचालन किया। दूरस्थ अध्यक्ष डॉ. दीपक गुप्ता ने आंगतुक सभी महापुरुषों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि गुरुदेव हमारे प्रेरणा स्वरूप हैं। उनका आशीर्वाद संतों के दर्शन के रूप में सदैव प्राप्त होता रहा है। विशेष रूप से महामंडलेश्वर स्वामी दयाराम दास महंत रवि प्रपन्नाचार्य ने भी धार कर अपना आशीर्वाद प्रदान किया।

### सुरक्षा जागरूकता के लिए निकाली बाइक रैली

देहरादून/टीएम एक्शन इंडिया  
फुटहिल चैप्टर देहरादून और तमतारा कैफे की ओर से सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत बाइक रैली का आयोजन किया गया। यह बाइक रैली देहरादून-हरिद्वार रोड से शुरू होकर सहस्त्रधारा-मसुरी रोड होते हुए राजपुर रोड के तमतारा कैफे तक आयोजित की गई। रिविवा को आयोजित इस बाइक रैली में हार्ले डेविडसन के 1500 सीसी से ऊपर के सभी मॉडलों को राइडर्स ने शामिल किया और सुरक्षा जागरूकता का संदेश दिया। फुटहिल चैप्टर देहरादून की ओर से 25 बाइक राइडर्स शामिल हुए और सुरक्षा जागरूकता अभियान का संदेश लोगों तक पहुंचा।

### पूर्वजों के सपनों को साकार करेंगे स्वतंत्रता सेनानी



हरिद्वार/टीएम एक्शन इंडिया  
स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति की पहल पर देशभर में विगत 17 माह से अनवरत चल रहे हर महीने के प्रथम रिविवा को 10 बजे 10 मिनेट पर अपने पूर्वजों के नाम अभियान के अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानी शहीद परिवारों के द्वारा स्वतंत्रता सेनानी स्मारकों और शहीद स्थलों पर ध्वजारोहण, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का गायन, पुष्पांजलि कार्यक्रम और एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शहीद की जीवन गाथा सुनाई जाती है। इसी कड़ी में सेनानी शहीद परिवारों ने देशभर में स्वतंत्रता सेनानियों तथा शहीदों के प्रति श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि समर्पित की। इस अवसर पर अमर शहीद जादवीश वत्स पार्क जटवाड़ा पुल चलापुर में आयोजित कार्यक्रम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत भूषण विद्यालंकार ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बाद शहीद जादवीश वत्स की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तथा पुष्पांजलि अर्पित की। स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेन्द्र रघुवंशी ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने देश को आजाद कराते समय अपने देश के लिए जो सपने देखे थे, उनकी अभी तक सरकारों ने अंजदखी ही की है। जिनके त्याग और बलिदान से देश आजाद हुआ, उन्हें न तो यथोचित सम्मान मिला और न ही उनके परिवारों की समस्याओं की ओर सरकारों का ध्यान गया है। अब समय आ गया है कि पूरे देश के सेनानी शहीद परिवार इस अभियान के माध्यम से अपनी संयुक्त शक्ति से सरकारों को ध्यान देने के लिए विवश करें और अपने पूर्वजों के सपनों को साकार करने के लिए कटिबद्ध हो जाएं। नरेन्द्र कुमार वर्मा ने अपने पिता महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व. कानिशन वर्मा की जीवन गाथा सुनाते हुए बताया कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ गांव-गांव जाकर तिरंगा झंडा फहराते और क्रान्तिकारियों का संदेश सुनाते थे। उन्होंने जीवन भर सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

## रोशनलाल ने जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव पर लगाए कई गंभीर

हरिद्वार/टीएम एक्शन इंडिया  
किशोरी लाल क्रिकेट एकेडमी के संचालक रोशनलाल ने धांधली और मनमानी को लेकर जिला क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ हरिद्वार पर गंभीर आरोप लगाए। रोशनलाल ने रिविवा को प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ हरिद्वार के कुछ सदस्यों ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर एकेडमी खोली हुई है। उन्होंने कहा कि वे अपनी एकेडमी को फायदा पहुंचाने के लिए एसोसिएशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि ट्रायल में बच्चों का सलेक्शन या इन्टर डिस्ट्रिक्ट टीम सलेक्ट करनी हो, सभी में ये लोग अपने बच्चों को किसी न किसी बहाने जगह देकर अन्य



टैलेण्टेड बच्चों से भेदभाव करते हुए उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में कई बार क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ हरिद्वार और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड को भी शिकायत की गई, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इस सबके लिए हरिद्वार क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव इंदरमोहन बर्थवाल को जिम्मेदार बताया कि पहले तो जिला लीग में

में दूसरी एकेडमी के बच्चों के अच्छे प्रदर्शन करने के बावजूद एसोसिएशन के सदस्य अपनी एकेडमी के बच्चों को प्राथमिकता देने की साजिश रचते हैं। उन्होंने बताया कि जब से लीग अथवा टूर्नामेंट का रिकार्ड क्रिकेटरों से एप पर आना शुरू हुआ है, तब से थोड़ा बहुत धांधलियों पर अंकुश लगा है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तिकड़म लगाकर ये लोग अपनी एकेडमी के बच्चों को अब भी प्राथमिकता देते हैं। दूसरी एकेडमी के बच्चों से हो रहा भेदभाव- जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव इंदरमोहन बर्थवाल पर लगाए गए आरोपों में उन्होंने यह भी बताया कि पहले तो जिला लीग में

दूसरी एकेडमी के बच्चों से भेदभाव होता है, उसके बाद इन्टर डिस्ट्रिक्ट के लिए चयनित हुई टीम में किस खिलाड़ी को खिलाना है, किसको नहीं, किसको किस नम्बर पर बैटिंग करानी है, बॉलर को कितने ओवर करवाने हैं। इसके अलावा दूसरी एकेडमी के बच्चों को किसी न किसी बहाने एक मैच खिलवाकर बाहर कर देते हैं, बॉलर को कम ओवर देना या बिल्कुल नहीं देना। जानबूझ कर दूसरी एकेडमियों के बच्चों को मानसिक रूप से परेशान किया जाता है, जिससे कि वह अच्छे प्रदर्शन न कर सके जबकि अपनी एकेडमी के बच्चों को अच्छे प्रदर्शन न करने के बावजूद भी लगातार खिलवाते हैं।

## विश्व योग नगरी को नहीं बनने दिया जाएगा शराब नगरी : मोहन सिंह

ऋषिकेश/टीएम एक्शन इंडिया  
उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता केन्द्रीय उपाध्यक्ष मोहन सिंह अस्वाल ने कहा कि विश्व योग नगरी को शराब नगरी नहीं बनने दिया जाएगा। हरिद्वार, ऋषिकेश में बढ़ रहे शराब के कारोबार से मुक्ति के लिए यूकेडी विशाल जन आंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। अस्वाल ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में शराब के कारोबार को बहुत तेजी से समाज में फैलाने का काम कर रही है। यह कहने में भी गुरुज

नहीं कि सरकार और शराब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सरकार शराब के बिना नहीं चल रही है और शराब जन जन तक बांटी जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से ऋषिकेश और ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत वाइन शॉप खोलने की प्रतियोगिता चल रही है और जनता दुकान वाइन दुकान का क्षेत्र में विरोध कर रही है। इससे साफ झलकता है कि वर्तमान युवाओं को नशा नहीं उठाने रोजगार देने की आवश्यकता है। इस शराब के कारोबार को आबादी क्षेत्र में स्वीकृति प्रदान करना बहुत बड़ा निन्दनीय विषय है। समाज का रख



न्यूज फ्लैश

इसुजु मोटर्स ने भारत में न्यू लाईफस्टाईल पिक अप मॉडल्स पेश किये

जालंधर: गतिशील भारतीय उपभोक्ताओं की जीवनशैली की भावना को बढ़ावा देने के लिये इसुजु मोटर्स ने लाईफस्टाईल पिक अप को बाजार में उतारा है जो इस सेगमेंट में एक ट्रेंड स्थापित करने की दिशा में इसुजु की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। नये लांच किये गये वाहनो की कीमत 21,19,900 रुपये (हाईलैंडर), 25,51,700 रुपये से शुरू (वी क्रॉस जेड प्रेसटीज), 26,91,700 रुपये से शुरू (वी क्रॉस जेड प्रेसटीज), एक्स शोरूम चैनैनी है। लेटेस्ट वी क्रॉस प्रेसटीज वैरिएंट एक्सटिरियर में कई खूबसूरत लैकिन उतम दर्जे के ऐलीमेंट्स के साथ स्टाईल को बढ़ाता है। इसकी समूची अपील डार्क ग्रे में बखूबी उभरती है। गाड़ी का ऑरिजनल डिजाईन साइबॉर्ग - ऑर्का से प्रेरित है जो कि दर्जनों बॉल्ड स्टाईलिंग ऐलीमेंट्स को बेहतरीन रूप से उकेरता है। ट्रांशान कंट्रोल सिस्टम (टीसीएस), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल डिसेंट कंट्रोल (एचडीसी), हिल स्टार्ट एसिस्ट (एवएसए) को एक्टिव सेपटी सिस्टम की दृष्टि से सभी मैनुअल ट्रांसमिशन मॉडल्स में पेश किया गया है। पेंसिव सेपटी सिस्टम को बढ़ाने के लिये सभी पैसंजर पिक अप मॉडल्स को रियर सीट ऑक्जुपेट डिटेक्शन सेंसर से युक्त किया गया है और इनमें पीछे बैठने वाली तीनों सवारियों के लिये 3 व्हाईट सीट बेल्ट का स्टैंडर्ड तय किया गया है। लांच अवसर पर टिप्पणी करते हुये इसुजु मोटर्स के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर टोरु किशिमतो ने कहा कि उन्हें भारत में अपने पहले लाईफस्टाईल एडवेंचर यूटिलिटी वाहन के साथ पेश करने में वैमर्का स्थापित करने पर गर्व है। लांच के बाद से ही कंपनी को खूब सराहना प्राप्त हो रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आकांक्षी उत्पादों की इस समृद्ध रेंज के साथ उन्हें प्रतिस्पर्धी भारतीय ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगी।

देशव्यापी संघ आईसीएआई के दृष्टि रोडमैप से अवगत हुए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

चंडीगढ़: वर्ष 2027 तक विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करने के भारत सरकार के विजन के साथ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के सर्वोच्च देश व्यापी संघ - दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के उद्देश्यों को रक्षाकित करते हुये आईसीएआई के नवनिर्वाह राष्ट्रीय अध्यक्ष सीए रंजीत कुमार अग्रवाल ने 2024-25 तक के अपने स्ट्रेटिजिक रोडमैप - दृष्टि की घोषणा की। सीए अग्रवाल देश के 72वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल संभालने के बाद नवनिर्वाह कार्यकारिणी के साथ पहली बार चंडीगढ़ पहुंच कर होटल हयात में आयोजित एक सैमिनार के दौरान चंडीगढ़ ट्राईसिटी के सीए सदस्यों को संबोधित कर रहे थे। आईसीएआई चंडीगढ़ ब्रांच की मेजबानी में आयोजित इस सैमिनार में लगभग 200 सीए मैम्बर्स ने भाग लिया नवनिर्वाह राष्ट्रीय कार्यकारिणी के रणनीतिक पहलुओं से अवगत हुये। दृष्टि के भाव पर विस्तारपूर्ण प्रकाश डालते हुये उन्होंने बताया कि दृष्टि के डी से डिजिटलीकरण, आर से रिसर्च, आई से इंटीग्रिटी, एस से सिकल्स, एच से हैडशेडिंग, टी से ट्रांसपैरेंसी और आई से इंडीपेंडेंस के मायने हैं जो कि इन सभी कारकों और सीए समुदाय के सामूहिक प्रयासों से देश को वर्ष 2047 तक दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में आगे बढ़ाने में कार्य करेंगी। इससे पूर्व अपने स्वागत संबोधन में आईसीएआई चंडीगढ़ चैटर के चेयरमैन सीए अभिषेक सिंह चौहान ने उम्मीद जताई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का दृष्टि रोडमैप ने केवल राष्ट्रीय हित में बल्कि सीए प्रोफेशन में नये आयाम स्थापित करने में भी लाभकारी सिद्ध होगी। चौहान ने नेशनल प्रेजिडेंट से स्थानीय सीए मैम्बर्स और स्टूडेंट्स के हितों के लिये मार्ग रखा। वर्तमान में चंडीगढ़ ब्रांच के अधीन लगभग 3500 सीए प्रैक्टिस कर रहे हैं जबकि अप्पर नार्थ से लगभग दस हजार सीए स्टूडेंट्स दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सीए प्रोफेशन के दायरे में वर्ष दर वर्ष वृद्धि हो रही है।

टेलीग्राम के माध्यम से शेयर ट्रेडिंग करने की वारदात में शामिल दस आरोपित गिरफ्तार

टीएम एक्शन इंडिया सोनीपत: कुंडली थाना क्षेत्र में ऑनलाइन एप के माध्यम से ट्रेडिंग व आईपीओ खरीद में के नाम पर युवक से 14.65 लाख रुपये हड़पने के मामले में साहब थाना पुलिस ने दस आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के पास से पुलिस ने दो लाख 70 हजार रुपये की राशि व दस मोबाइल फोन बरामद किए हैं। आरोपितों को अदालत में पेश किया। जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

अपार्टमेंट कुंडली निवासी प्राणतोष ने गत 13 मार्च को पुलिस से शिकायत देकर बताया कि 9 जनवरी को वह एफआईआई अकाउंट नाम के ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग संस्थान से जुड़ा था। उन्होंने वह वेल स्टॉक नामक ऑनलाइन एप के माध्यम से प्री-मार्केट ट्रेडिंग और आईपीओ खरीदारी करता है। वह उन्हें रोज शेयर खरीदने की सलाह देने लगे। साथ ही वह अपने खाता नंबर पर रुपये जमा कराने की सलाह देते थे। उन्होंने बातों में लेकर उनसे करीब एक माह में

14.65 लाख रुपये जमा करा लिये। उनके खाते में 69.54 लाख रुपये दिखाई देने लगे। उन्होंने पुलिस को बताया कि 22 फरवरी उन्हें मैसेज मिला कि खाते को चालू रखने के लिए इसमें जमा धनराशि कम है और उन्हें 50 लाख रुपये जमा करने को कहा गया। उन्होंने रुपये जमा कराने से मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि वह अपने खाते से सभी रुपये निकाल सकते हैं या इसमें बड़ी राशि जमा होने तक इंतजार कर सकते हैं।

लोकरसभा चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों को देंगे ज्ञापन

भाजपा उम्मीदवारों से पूछेंगे कि क्यों नहीं लागू की कर्मचारियों की मांगों, बैठक में संगठन को मजबूत बनाने के लिए भी रणनीति तैयार की गई

टीएम एक्शन इंडिया राजकुमार प्रिंस करनल। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की जिला कार्यकारिणी की बैठक सेक्टर-12 स्थित हुडा कार्यालय में जिला प्रधान सुशील गुर्जर सिरसी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का संवाहन जिला सचिव सेवा राम बड़सर ने किया। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए संघ के जिला प्रेस सचिव कृष्ण कुमार निर्माण ने बताया कि कर्मचारी मुद्दों को लेकर जिला के सभी खंडों में खंड स्तरीय कवेंशनों की जाएगी, वहीं सरकार की जन विरोधी, कर्मचारियों विरोधी

नीतियों को लेकर जिलाभर के सभी विभागों के कर्मचारियों में पर्चे वितरित किए जाएंगे, जिसके लिए तमाम ब्लॉक वा विभाग के

नेताओं को इट्यटी लगाई गई। साथ ही लोकरसभा चुनाव में खड़े तमाम पार्टियों के उम्मीदवारों को सर्व कर्मचारी संघ की ओर से

कर्मचारियों की मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया जाएगा व उस पर उनके विचार जाने जाएंगे। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने के लिए भी रणनीति तैयार की गई। बैठक में बिजली यूनियन के राज्य उप महासचिव राजेंद्र राणा, जिला कोषाध्यक्ष ऋषिपाल इंद्रि, जिला उपप्रधान राजपाल बसताड़ा, जिला सहसचिव रमेश शर्मा चोंचडा, जिला कार्यकारिणी सदस्य धीरज रावत, ओम प्रकाश सिंहमरा, उधम सिंह राठी, खंड प्रधान करनल भाग सिंह, खंड सचिव राजकुमार, कोषाध्यक्ष रमेश कुमार मेहरा, धरौडा से खण्ड सचिव रमेश कुमार, निसिंग

खंड से प्रधान अशोक भाटिया, नीलोखेड़ी खंड से सदस्य मीना रानी, असंध से खंड प्रधान कपिल शर्मा, सचिव राजेश शर्मा, मैकेनिकल वकर यूनियन से रंगलाल संधू और रोहताश खोखर, फील्ड स्टाफ मिनिस्ट्रियल यूनियन से जिला प्रधान सुरेंद्र कुमार, बिजली यूनित से अजीत सैनी और सचिव जगमाल सिंह, सब यूनित प्रधान महेंद्र पांचाल, फायर विभाग से कपिल कुमार, रिटायर्ड कर्मचारी संघ से रोशन लाल गुप्ता, हुडा वकर यूनियन से सरदार गुरुविंदर सिंह, इंद्रि से नरेश मेहला आदि हाजिर रहे।

टीएम एक्शन इंडिया सोनीपत: मुख्तल थाना पुलिस ने ओडिशा से ट्रक में खैर की लकड़ी लेकर आ रहे दो तस्करों को पकड़ा है। पुलिस ने वन विभाग की टीम को बुलाकर खैर की लकड़ी से भरे ट्रक को पकड़ा है। इसमें खैर की लकड़ी होने का अंदेश है। सूचना के बाद उच्चाधिकारियों के आदेश पर वह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सुनील के मुताबिक ट्रक में जांच की गई तो उसमें लकड़ी भरी हुई थी।

चैक करने पर खैर की लकड़ी प्रतीत हुई। चालक पुषेंद्र और परिवारलक अजय गौड़ लकड़ी के बारे में कोई कागजात व बिल्टी पेश नहीं कर सके। शक है कि लकड़ी चोरी की भी हो सकती है। इसके

बाद लकड़ी का वजन करार लकड़ियों को ट्रक से उतार कर गिनती व पैमाइश की जा रही है। लकड़ी की कीमत करीब 40 लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने इस संबंध में आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शुरूआती पूछताछ में चालक-कतोर ने लकड़ी को ओडिशा से लेकर आने की बात कही है। हालांकि कहा जा रहा है कि इस संबंध में गहनता से पूछताछ के बाद ही पता लग सकेगा। चालक व कतोर से पूछताछ की जाएगी। पुलिस टीम ने आरोपितों को कुरुक्षेत्र की पर्यावरण कोर्ट में पेश किया है।

'प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास की गंगा बह रही'



टीएम एक्शन इंडिया राजकुमार प्रिंस करनल। भाजपा नेता मानव पुरी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास की गंगा बह रही है। विकास कार्य को और आगे बढ़ाने व 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नरेन्द्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सभी जनता वोट के रूप में आहुति डाले और नरेन्द्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। उन्होंने केन्द्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी गरीब, महिला और युवाओं के विकास व उत्थान के लिए लगातार काम

करने के साथ विश्व में देश का मान सम्मान बढ़ाने और देश की सोमा को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पिछले साढ़े 9 साल में प्रदेश के कोने-कोने में विकास हुआ है। हरियाणा प्रदेश विकास के क्षेत्र में देश के अग्रणीय राज्यों में शामिल है। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े 9 वर्ष के भाजपा

कार्यकाल में राज्य सरकार ने समान रूप से प्रदेश में विकास कार्य करवाए हैं तथा प्रदेश के युवाओं को ब्यौर भेदभाव के मैरिट के आधार पर नौकरियां

देने का काम किया है। मानव पुरी ने कहा कि अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। देश और प्रदेश के विकास के लिए एक बार फिर देश की जनता भाजपा को चुनेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में जनता साथ देगी। मानव पुरी ने कहा कि हरियाणा की सभी 10 सीटों पर कमल खिलेगा। करनल लोकसभा से मनोहर की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत होगी। करनल विधानसभा उप चुनाव में भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विजयी होकर करनल के विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।

विद्यार्थियों की मेहनत से होगा स्कूल का नाम रोशन: रेनू



टीएम एक्शन इंडिया राजकुमार प्रिंस करनल। हाल ही में घोषित बारहवीं कक्षा के सत्र 2023-2024 का एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का परिणाम जिलेभर में शानदार रहा है। विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100 प्रतिशत रहा है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी देव ने 90 प्रतिशत अंक प्राप्त करके अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय देते हुए विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इतना ही नहीं, बेहतरीन परिणामों की कड़ी में मेधावी विद्यार्थी

साहिल कुमार ने 89 प्रतिशत तथा हरमन ने 88 प्रतिशत अंक प्राप्त करके द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर रहे हैं। विद्यालय के 22 छात्रों ने मैरिट प्राप्त की है तथा 93 छात्रों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त करके विद्यालय का नाम रोशन किया है। प्रधानाचार्या रेनू गुप्ता ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि यदि विद्यार्थी इसी तरह मेहनत करते रहे तो वह दिन दूर नहीं, जब स्कूल का नाम पूरे हरियाणा के मानचित्र पर न हो।

रोहित अहलावत ने एक बार फिर इंग्लैंड में अपना परचम लहराया

टीएम एक्शन इंडिया पानीपत/कमाल हुसैन अंतरराष्ट्रीय जाट संसद के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष डॉ नवीन नैन भालसी ने बताया कि युवा समाजसेवी रोहित अहलावत ने पिछले नगर पाषंड का चुनाव जीता था, एक साल के अंदर ही जिला पाषंड का चुनाव जीत लिया। रोहित अहलावत ने वॉकिंगहेम बरो काउंसिल के हॉकडन वार्ड चुनाव लड़ा और जीत गए हैं। इस दौरान डॉ नवीन नैन भालसी ने बताया कि हॉकडन वार्ड सत्कारुद्ध पार्टी लिबरल डेमोक्रेट्स का गढ़ था, यहां कंजरवेटिव पार्टी का कोई जनाधार नहीं था फिर भी रोहित ने कंजरवेटिव पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इस दौरान डॉ नवीन नैन भालसी ने बताया कि हॉकडन वार्ड बरो काउंसिल में उनकी जीत चर्चा का विषय बन गई, वे इस चुनाव को जीतने वाले पहले भारतीय हैं, पूरे इंग्लैंड में कंजरवेटिव पार्टी की निराशाजनक स्थिति के बावजूद यह जीत हासिल करना सराहनीय है, रोहित अहलावत



को पार्टी ने उन्हें 2 महीने पहले ही उम्मीदवार घोषित कर दिया था हमारे रोहित ने एक महीने तक घर-घर जाकर नागरिकों से अपील की। ? रोहित ने बताया कि अब वे दोनों पदों (बोरो पाषंड और नगर पाषंड) पर रहकर अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करेंगे। इस जीत में मुख्य रणनीतिकार अमीन अहलावत, पवन लुगी, साक्षी सिंह, सीमा अहलावत, निशा, सुनीमा ग्रेवल, विक्रम रावत, प्रवीण अहलावत, हरीश दहिया आदि रहे।

जन्मदिन पर महादेव के समक्ष नतमस्तक हुए मनोहर

मंजी साहिब गुरुघर में नवाया शीश, संतों का लिया आशीर्वाद

टीएम एक्शन इंडिया राजकुमार प्रिंस करनल। पूर्व मुख्यमंत्री एवं करनल लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी मनोहर लाल अपने जन्मदिन के अवसर पर करनल पहुंचे। इस दौरान वे करनल के पुराना चौड़ा बाजार स्थित प्राचीन शिव मंदिर और प्रथम पातशाही गुरुद्वारा मंजी साहिब में नतमस्तक होने पहुंचे। मनोहर लाल ने शिव मंदिर में जाकर महादेव भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। इसके बाद वे मंजी साहिब गुरुद्वारा में पहुंचे जहां उन्होंने शीश नवाया। इस दौरान गुरुओं और संतों ने मनोहर लाल को प्रचंड जीत के लिए आशीर्वाद दिया। मनोहर लाल का जगह-जगह स्वागत किया गया और उपस्थित लोगों ने मनोहर



लाल को जन्मदिन की बधाई दी। शिव मंदिर में मनोहर लाल को भगवान शिव की तस्वीर भेंट की गई। गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब में बाबा सुक्या सिंह व सिख संतों की ओर से मनोहर लाल को सिरोंपा भेंट कर सम्मानित किया

गया। मनोहर लाल ने संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने हरियाणा के सभी सिक्खों को परिवार मानकर सेवा की है और वह निरंतर समाज की सेवा करते रहेंगे। आज उनका जन्मदिन है और इस अवसर पर जो आशीर्वाद

और स्नेह उन्हें मिला है, वह उससे अभिभूत हैं। अब जनता के आशीर्वाद से वे सांसद बनकर सेवा करेंगे और देश के लिए ऐतिहासिक निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का साथ देने का काम करेंगे।

मनोहर लाल ने करनल क्षेत्र के लिए कोई विशेष काम नहीं किया: दिव्यांशु

टीएम एक्शन इंडिया राजकुमार प्रिंस करनल। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष स्वर्गीय देशराज गाबा के निवास पर आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं ने एकजुटता का परिचय दिया। करनल लोकसभा प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा ने मंच से कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में भाजपा के करनल लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल के कार्यकाल को लेकर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि यह सरकार ने केवल कौरी घोषणाओं तक सीमित रही। स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रूपए आए, लेकिन धरातल पर उतना विकास नहीं दिखा। जिन उम्मीदों के



साथ मनोहर लाल को यहां की जनता ने विषयक बनाया और वे दो बार मुख्यमंत्री बने, जितना प्यार जनता ने उन्हें दिया, स्थानीय निवासियों को कभी महसूस नहीं हुआ कि वे सीएम सिटी के वाशिदे हैं। बुद्धिराजा ने कहा कि मनोहर लाल ने बतौर सीएम इस

क्षेत्र के लिए कोई विशेष काम किया ही नहीं। यही वजह है कि वे लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार होने के बावजूद जनता से सहानुभूति हासिल नहीं कर पा रहे हैं। आने वाला समय कांग्रेस का है और चुनाव फिजा बदल चुकी है।

कांग्रेस भारी बहुमत के साथ यह चुनाव जीतेगी और उनके समक्ष कोई भी प्रतिद्वंद्वी टिक नहीं जाएगा। कार्यक्रम के आयोजक पराग गाबा, पंकज गाबा व प्रवेश गाबा ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं और हजारों समर्थकों के साथ बुद्धिराजा का जोरदार स्वागत किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि कांग्रेस का एक-एक कार्यकर्ता इस चुनाव में जी जान से लड़ेगा और बुद्धिराजा यहां से भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। यही नहीं विधानसभा उप चुनाव में भी कांग्रेस प्रत्याशी त्रिलोचन सिंह की जीत सुनिश्चित है। इस अवसर पर करनल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार त्रिलोचन सिंह, असंध से कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोपी, पूर्व मंत्री

भीमसेन मैहता, अशोक खुराना, राजकुमार वाल्मीकि, रामपाल धीर, बीआर मदान, पम्मा जलमाना, लवली पहलवान, शेर सिंह, हरी राम साभा, ओमप्रकाश सलुजा, पप्पू लाटर, जीत संधू, सुरेंद्र शर्मा, सुरजिती, सागर चंदिल, मुकेश शर्मा, शिव शर्मा, बिट्टू जोरदार, टोनी कक्कड़, बलजीत सिंह इच्छनपुर, बिट्टू इच्छनपुर, दिलराज सिंह, चरणजीत पानीपत, राजिन्द्र रावल, अनिल, सतिन्द्र कानोला, उषा तुली, सत्या दुग्गल, गुरुविन्द कौर, संतोष तेजान, सुनीता साहोता, सुमित राणा, पुनीत कुक्की, पीयूष शर्मा, मुकेश शर्मा, सपना राणा, सोनू शर्मा, पंकज कौशिक, आकाश, अमित सहित भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, राजीव जैन सहायता प्रदान की



सोनीपत: मोहन नगर में बीती रात सिलेंडर एवं कुकर मरम्मत की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में सब कुछ स्वाह हो गया। आग इतनी भयंकर थी कि लोहे के सिलेंडर तक पिघल गए। मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार एवं वरिष्ठ भाजपा नेता राजीव जैन सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे और पीड़ित को सांत्वना देते हुए निजी कोष से पच्चीस हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। दुकानदार राजू सहगल ने बताया कि वह उत्तराखंड के बने वाले हैं और ऋण लेकर काम शुरू किया था। आगजनी के कारण हम बर्बाद हो गए हैं। आग बुझाने के प्रयास में दुकानदार के हाथ पांच वी जल गए। पीड़ित की पत्नी ने बताया कि उनके प्यार खाने और दवाई तक के पैसे नहीं बचे हैं। पड़ोसी डॉक्टर जोगेंद्र वर्मा ने बताया कि आग बुझाने में पड़ोसियों ने भी मदद की और समय पर आकर फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग को काबू किया। राजीव जैन ने आश्वासन दिया कि वह चुनव की आचार संहिता हटने के बाद सरकार से भी मदद करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया कि पिछले कार्यकाल में भी दुकानदारों को आगजनी होने पर कविता जैन के स्वेच्छिक कोष से नुकसान की भरपाई करवाई गई थी और अब भी पीड़ितों को भरपूर सहायता प्रदान करने के प्रयास कर रहे हैं।

मुख्तल के पास खैर की लकड़ी से भरा ट्रक पकड़ा

टीएम एक्शन इंडिया सोनीपत: मुख्तल थाना पुलिस ने ओडिशा से ट्रक में खैर की लकड़ी लेकर आ रहे दो तस्करों को पकड़ा है। पुलिस ने वन विभाग की टीम को बुलाकर खैर की लकड़ी से भरे ट्रक को पकड़ा है। इसमें खैर की लकड़ी होने का अंदेश है। सूचना के बाद उच्चाधिकारियों के आदेश पर वह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सुनील के मुताबिक ट्रक में जांच की गई तो उसमें लकड़ी भरी हुई थी।

चैक करने पर खैर की लकड़ी प्रतीत हुई। चालक पुषेंद्र और परिवारलक अजय गौड़ लकड़ी के बारे में कोई कागजात व बिल्टी पेश नहीं कर सके। शक है कि लकड़ी चोरी की भी हो सकती है। इसके

बाद लकड़ी का वजन करार लकड़ियों को ट्रक से उतार कर गिनती व पैमाइश की जा रही है। लकड़ी की कीमत करीब 40 लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने इस संबंध में आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शुरूआती पूछताछ में चालक-कतोर ने लकड़ी को ओडिशा से लेकर आने की बात कही है। हालांकि कहा जा रहा है कि इस संबंध में गहनता से पूछताछ के बाद ही पता लग सकेगा। चालक व कतोर से पूछताछ की जाएगी। पुलिस टीम ने आरोपितों को कुरुक्षेत्र की पर्यावरण कोर्ट में पेश किया है।



### रामपुर के अशित सक्सेना का भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट टीम में चयन

एजेंसी मुंबई। भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट टीम में पश्चिम उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद के रहने वाले अशित सक्सेना का चयन हुआ है। बेटे के चयन पर परिवार में खुशी का माहौल है। अशित सक्सेना के रिश्तेदार और राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रतीय अश्वथ रोहन सक्सेना ने यह जानकारी शनिवार को दी है। उन्होंने बताया कि भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट संघटन के महासचिव अनिश नरला की ओर से एक पत्र जारी हुआ है। इसमें भारत और श्रीलंका की टीम के बीच आगामी 16 मई से 20 मई तक श्रीलंका के कोलंबो शहर में टेनिस बॉल क्रिकेट लंका चैंपियन टूर्नामेंट संपन्न होगा। इस चैंपियन टूर्नामेंट के लिए अशित सक्सेना का चयन भारतीय टीम में हुआ है। यह टीम 15 मई को चेन्नई से श्रीलंका के लिए प्रस्थान करेगी। इससे उनके परिवार और रिश्तेदारों में खुशी का माहौल है और अशित को अग्रिम बधाईयाएं एवं शुभकामनाएं मिल रही हैं।

### कोपा अमेरिका से पहले दोस्ताना मैच में आमने-सामने होंगे कोस्टा रिका, उरुग्वे

सैन जोस। कोस्टा रिका और उरुग्वे इस महीने के अंत में एक मैत्रीपूर्ण मैच के जरिये इस साल के कोपा अमेरिका के लिए अपनी तैयारियां तेज करेंगे। कोस्टा रिका फुटबॉल महासंघ ने शनिवार को यह जानकारी दी। यह मैच 31 मई को कोस्टा रिका की राजधानी सैन जोस के राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। कोस्टा रिका और उरुग्वे के बीच पिछले सात मैचों में दोनों टीमों ने दो-दो जीत दर्ज की है और तीन मैच ड्रॉ रहे हैं। कोस्टा रिका 24 जून को ब्राजील के खिलाफ कोपा अमेरिका में अपने अभियान की शुरुआत करेगा, उसके बाद ग्रुप चरण में पैराग्वे और कोलंबिया से भी भिड़ेगा। उरुग्वे को 23 जून को पनामा के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करनी है और उसे टूर्नामेंट के पहले चरण में बोलिविया और संयुक्त राज्य अमेरिका का भी सामना करना है।

### मप्र रोडिंग अकादमी के छह खिलाड़ी ब्रिक्स गेम्स के लिए भारतीय टीम में चयनित

भोपाल। रूस के कजन शहर में 12 से 23 जून 2024 तक ब्रिक्स गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में दुनिया भर के 300 प्रतिभावाण खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 12 सदस्यीय भारतीय दल में मप्र राज्य खेल अकादमी के छह खिलाड़ी शामिल हैं। अकादमी के मुख्य प्रशिक्षक दलबीर सिंह राठौर को भी भारतीय महिला रोडिंग टीम का प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है।

- खिलाड़ियों का विवरण इस प्रकार है:-
1. खुशप्रीत कौर
2. पूनम
3. रूकमणी
4. गुरवाणी कौर
5. दिलजोत कौर
6. विंध्या संकत

भारतीय टीम 11 जून 2024 को हैदराबाद से रूस के लिए रवाना होगी। सभी खिलाड़ी अर्जुन अवाडी, प्रशिक्षक दलबीर सिंह के मार्गदर्शन में प्रशिक्षणरत हैं। खिलाड़ियों का चयन 41वीं सीनियर नेशनल प्रतियोगिता पुणे से किया गया है।

### 20वीं सीनियर नेशनल साइक्लिंग प्रतियोगिता: मप्र की संध्या मौर्य ने क्रासकंट्री टाइम ट्रायल में जीता कांस्य पदक

भोपाल। हरियाणा के पंचकुला शहर में गत दिनों आयोजित 20वीं सीनियर नेशनल साइक्लिंग प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश की खिलाड़ी संध्या मौर्य ने साइक्लिंग के क्रासकंट्री टाइम ट्रायल में खेल का शानदार प्रदर्शन



कर कांस्य पदक अर्जित कर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। संध्या मौर्य ने 30 कि.मी. की इस ऑफ रोड प्रतियोगिता में एक घंटे 14 मिनट 45:68.99 सेकंड का समय लेकर कांस्य पदक अर्जित किया। प्रतियोगिता में महाराष्ट्र की रुबिका गायकवाड द्वितीय स्थान पर और कर्नाटक की स्टॉर नारजारी प्रथम स्थान पर रही। संध्या मौर्य ने भागलपुर पहुंचने पर खेल और युवा कल्याण संचालक रविशंकर गुप्ता से अपने प्रशिक्षक विशाल सिंह सेगर के साथ सीनियर भेंट की और अपनी उपलब्धियों से अवगत कराया। उल्लेखनीय है कि संध्या मौर्य नववर्ष की भारतीय टीम में चयनित हुई थीं। संध्या मौर्य वर्तमान में एशियन चैंपियनशिप की तैयारी भोपाल में कर रही हैं।

## आकाश चोपड़ा ने रोहित शर्मा के टी20 विश्व कप चयन की आलोचना से इनकार किया

मुंबई। भारत के पूर्व क्रिकेटर से कमेंटेटर बने आकाश चोपड़ा ने अपने एक्स अकाउंट पर स्पष्ट किया कि उन्होंने रोहित शर्मा के खिलाफ विवादित टिप्पणी नहीं की, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। आकाश चोपड़ा ने कहा कि वह एक पत्रकारितावादी दावा कर रहे हैं कि चोपड़ा ने जून में आगामी टी20 विश्व कप 2024 के लिए भारतीय टीम में रोहित के चयन की आलोचना की। मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान का इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के इस सीजन में अब तक का अभियान सबसे अच्छा नहीं रहा है और उन्होंने 11 टी20 मैचों में सिर्फ 32.6 रन बनाए हैं। रोहित ने 3 मई को वानखेड़े स्टेडियम में एमआई के खिलाफ 11 रन बनाए थे, जिसमें वे 20 ओवरों में 170 के

## जीएसटीए ने युवा खिलाड़ियों की खोज और उन्हें तराशने के उद्देश्य से टीपीएल के साथ मिलाया हाथ

मुंबई। गुजरात राज्य टेनिस संघ (जीएसटीए) ने स्थानीय स्तर पर जमीनी स्तर के टेनिस कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टेनिस प्रीमियर लीग (टीपीएल) के साथ हाथ मिलाया है। टीपीएल और जीएसटीए मिलकर काम करेंगे और युवा महत्वाकांक्षी टेनिस खिलाड़ियों का समर्थन करेंगे, साथ ही विभिन्न आयु-समूहों में टेनिस टूर्नामेंट आयोजित करने में मदद करेंगे। जीएसटीए के साल भर चलने वाले कार्यक्रम का भी अहम हिस्सा रहे हैं और कुछ बेहतरीन खिलाड़ी तैयार किए हैं। अब, टीपीएल और जीएसटीए की टीम युवा खिलाड़ियों के लिए

## आरसीबी ने गुजरात को 4 विकेट से हराया

एजेंसी मुंबई। इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन के मैच नंबर-52 में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु (ऋछर) ने गुजरात टाइटन्स (तज्ञ) को चार विकेट से हरा दिया। शनिवार (4 मई) को चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में गुजरात ने आरसीबी को जीत के लिए 148 रनों का टारगेट दिया था, जिसे उसने 13.4 ओवरों में ही हासिल कर लिया। आरसीबी की मौजूदा सीजन में यह 11 मैचों में यह चौथी जीत रही। दूसरी ओर गुजरात टाइटन्स की इतने ही मैचों में यह सातवां हार रही। आरसीबी की टीम इस जीत के चलते अंतागालिका में सातवें नंबर पर आ गई है, उसकी प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद भी कायम है।

92 रनों की ओपनिंग साझेदारी की। आरसीबी ने 25 रनों के अंदर 6 विकेट गंवाए, फिर दिनेश कार्तिक



बनाए, जिसमें चार छक्के और दो चौके शामिल रहे। वहीं डु प्लेसिस ने सिर्फ 23 गेंदों पर 64 रनों की पारी खेली। डु प्लेसिस ने अपनी पारी में 10 चौके और तीन छक्के लगाए। हालांकि ओपनिंग साझेदारी टूटने के बाद विकेट्स की झड़ी लग गई और

और स्वनिल सिंह ने नाबाद 35 रन जोड़कर आरसीबी को आसानी से लक्ष्य तक पहुंचा दिया। स्वनिल 15 और कार्तिक 21 रन बनाकर नाबाद रहे। गुजरात की ओर से आयरिश तेज गेंदबाज जोशुआ लिटिल ने चार विकेट लिए।

## वेरस्टैपेन ने मियामी स्प्रिंट रेस पोल जीता

एजेंसी मियामी। रेड बुल के मैक्स वेरस्टैपेन ने मियामी ग्रांड प्रिक्स स्प्रिंट रेस के लिए पोल पोजीशन हासिल कर ली और उनके साथ फेरारी के चार्ल्स लेक्लर भी अग्रिम पंक्ति में शामिल हो गए, जो स्पनिंग के बाद सुबह के अधिकांश अभ्यास से चुक गए। विजय विजय चैंपियन वेरस्टैपेन, जो चीनी ग्रां प्री में साल की पहली स्प्रिंट रेस जीतने के लिए ग्रिड पर चौथे स्थान से आए थे, शनिवार को मियामी इंटरनेशनल ऑटोड्रोम में एक मिनट, 28.194 सेकंड का शीर्ष समय पूरा करने के बाद आगे से शुरुआत करेंगे। वेरस्टैपेन ने शिकायत की, यह

वास्तव में बहुत भयानक लगा। बहुत अच्छा लगा। किसी तरह हम पहले स्थान पर पहुंचेंगे। लेक्लर का चला और लाल झंडा दिखाने के लिए ट्रैक पर रुक गया। लेकिन मोनेगारस्क ने क्वालीफाइंग में कोई गलती नहीं की और वेरस्टैपेन की टीम के साथी सर्जियो पेरेज के साथ रेड बुल्स को विभाजित करते हुए तीसरा सबसे तेज स्थान हासिल किया। लेक्लर ने कहा, लगातार दो रेसों में क्वालीफाइंग कमजोर बिंदु रहा है। मैंने निःशुल्क अभ्यास में एक लैप किया था, इसलिए क्वालीफाइंग में जाना था और सोधे बाहर जाना था। जब आपके पास लगातार दो रेस होती हैं, जहां आप क्वालीफाइंग में खराब होते हैं और मैंने अच्छा काम नहीं किया है, तो लोग बात करना शुरू कर देते हैं।



## मुंबई सिटी एफसी ने मोहन बागान सुपर जायंट को 3-1 से हराकर अपना दूसरा खिताब जीता

एजेंसी मुंबई। मुंबई सिटी एफसी ने 4 अप्रैल, शनिवार को सेंट्रल लेक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मोहन बागान एफसी को 3-1 से हराकर अपना दूसरा आईएसएल खिताब हासिल किया। मुंबई सिटी के लिए जॉर्ज डियाज, बिपिन सिंह और जैकब वोल्जस ने गोल दागे। वहीं, मोहन बागान की तरफ से जेसन कर्मिंस ने गोल दागा। मोहन बागान ने पहले हाफ के आखिरी मिनट में जेसन कर्मिंस को मदद से बंद बना ली थी, लेकिन मुंबई सिटी एफसी ने दूसरे 45 मिनट में खेल को पलट दिया। इसने मोहन बागान को खेल में वापसी करने का मौका नहीं दिया।

29वें मिनट में छंटे गोल करने की फिराक में थे, लेकिन उनका शॉट वाइड चला गया। मुंबई ने दो बार उन्हें बराबरी का गोल दे दिया। मुंबई ने जोर लगाया जारी रखा और 81वें मिनट में पहली बार गेम में बढ़त ले



पलवाट किया, लेकिन एक बार भी गोल नहीं हुआ। मोहन बागान ने 44वें मिनट में मुंबई का डिफेंस तोड़ दिया क्योंकि कर्मिंस ने कीपर के रिबाउंड का फायदा उठाया और मोहन बागान के लिए गोल दागा। दूसरे हाफ में मुंबई सिटी का दमदार खेल दूसरे हाफ में मुंबई सिटी की शुरुआत फुटफुट पर रही और दोबारा शुरू होने के 8 मिनट बाद डियाज ने

ली। जैकब ने बिपिन को गोल के लिए तैयार किया और मुंबई के स्टार ने अपने मौके को भुनाने में कोई गलती नहीं की। बागान बराबरी की कोशिश करेगा और संख्याएं आगे बढ़ाने का फैसला किया। यह उनके पतन का कारण होगा, क्योंकि वोल्जस ने दूसरे हाफ के स्टॉपिज के 7वें मिनट में गोल करके प्रतिरोध को समाप्त कर दिया।

## बाकू विश्व कप, ट्रेप प्रतियोगिता में तीन राउंड में कुल 69 का स्कोर बनाकर आठवें स्थान पर रहीं

एजेंसी नई दिल्ली। बाकू विश्व कप: ट्रेप प्रतियोगिता में तीन राउंड में कुल 69 का स्कोर बनाकर आठवें स्थान पर रहीं। श्रेयासी सिंह बाकू, अजरबैजान में चल रहे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन (आईएसएसएफ) विश्व कप की महिला ट्रेप प्रतियोगिता में तीन राउंड में कुल 69 का स्कोर बनाकर आठवें स्थान पर रहीं। पुरुषों और महिलाओं की प्रतियोगिताओं में एक भारतीय निशानेबाज के लिए उनका रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। श्रेयासी सिंह शनिवार को बाकू, अजरबैजान में चल रहे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन (आईएसएसएफ) विश्व कप की महिला ट्रेप प्रतियोगिता में तीन राउंड में कुल 69 का स्कोर बनाकर आठवें स्थान पर रहीं। पुरुषों और महिलाओं की प्रतियोगिताओं में एक भारतीय निशानेबाज के लिए



उनका रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। भारत ने बाकू विश्व कप के लिए केवल शॉटगन टीम भेजी है, जो पेरिस ओलंपिक से पहले महत्वपूर्ण रैंकिंग अंक प्रदान करता है। पूर्व रविवार शाम को निर्धारित है। इटालियन एरिका सेसा 73 के साथ सबसे आगे हैं। अन्य परिणामों में: महिला ट्रेप: राजेश्वरी कुमारी (स्कोर 65, स्थान 26वां), मनीषा कीर (स्कोर 63, स्थान 35वां) पुरुष ट्रेप - विवान कपूर (स्कोर 71, स्थान 25वां), भवनीश मेंदीरता (स्कोर 70, स्थान 38वां), पुष्कराज टोंडमान (स्कोर 69, स्थान 48वां)

## विश्व यूनिवर्सिटी गेम्स नीदरलैण्ड के लिए मप्र रोडिंग अकादमी के नौ खिलाड़ी भारतीय टीम में चयनित

एजेंसी भोपाल। नीदरलैण्ड में 03 से 06 जुलाई 2024 तक आयोजित विश्व यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए मप्र राज्य रोडिंग अकादमी के नौ खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में हुआ है। प्रशिक्षक दलबीर सिंह ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि पहली बार विश्व यूनिवर्सिटी गेम्स में रोडिंग के नौ खिलाड़ी भारतीय दल में चयनित हुये हैं। चयनित खिलाड़ियों का विवरण निम्नानुसार है:- 1. दिलजोत कौर, 2. आकाशा पिंगले, 3. सुहानी मीणा, 4. मनीषा दांगी, 5. अमन सिंह, 6. प्रयास, 7. राघव शरण, 8. योगेश ठाकुर, 9. नेहा सभी खिलाड़ी अर्जुन अवाडी, प्रशिक्षक दलबीर सिंह के मार्गदर्शन में



प्रशिक्षणरत हैं। इन खिलाड़ियों का चयन हाल ही में जलंधर (पंजाब) में आयोजित हुए राष्ट्रीय सिलेक्शन टूर्नामेंट से हुआ है।

## आईपीएल 2024: ग्रीम स्मिथ का कहना-हार्दिक पंड्या दिख रहे थे दबाव में

एजेंसी नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ ने कहा कि मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 में दबाव में एक व्यक्ति की तरह लग रहे हैं, जब पांच बार के चैंपियन को वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स से 24 रन से हार का सामना करना पड़ा। शुरुआत शानदार थी। इस सीजन के अब तक के 11 मैचों में यह उनकी आठवीं हार है, जिससे एमआई नौवें स्थान पर है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके प्लेऑफ की संभावना अब बहुत कम हो गई है। हार्दिक ने वास्तव में संघर्ष किया है; वह दबाव में एक आदमी की तरह लग रहा था। इससे हवा में थोड़ी उथल-पुथल मच गई है, कौन जानता है कि इसका लोभों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यहाँ तक कि बेटिंग लाइनअप भी, ऐसा लगता है जैसे वे ध्रुमित हैं। तिलक वर्मा और नमन धीर मध्य क्रम में लड़ रहे थे, धीरे-धीरे तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे थे, और हार्दिक सभी जगह घूम रहे थे। उन्हें पूरे सीजन में तिलक को तीसरे स्कोरिंग को चौथे और हार्दिक को पांचवें और डेविड को छठे नंबर पर बल्लेबाजी करना चाहिए था। फिर, अपनी गेंदबाजी इकाइयों का पता



लगाएँ। हर जगह, वे इस सीजन में बहुत ध्रुमित टीम रही हैं और यह आईपीएल की मेगा फ्रैंचाइजी में से एक से बेहद निराशाजनक रही है। स्मिथ ने जिओ सिनेमा से कहा, खुद फैनबेस और कैप में बहुत से लोग इसके बाद बहुत दुखी होंगे। नेतृत्वकारी भूमिका के अलावा, हार्दिक आईपीएल 2024 में बल्ले और गेंद दोनों से खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। बल्ले से, उन्होंने 19.8 की

औसत से केवल 19.8 रन बनाए हैं, जबकि 11 की इकॉनमी रेट से केवल आठ विकेट लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया का पूर्व हरफनमौला खिलाड़ी शेन वॉटसन एमआई कैप के कुछ ऑन-फील्ड फैसलों से हैरान थे। बल्ले स्थिति इतनी नाजुक थी (केकेआर 57-5 पर थी) तब नमन धीर को गेंदबाजी कराते रहना मुंबई इंडियंस के नेतृत्व की ओर से एक बड़ी गलती थी, चाहे वह हार्दिक पंड्या निर्णय ले रहे हों या साइडलाइन से जानकारी आ रही हो। बुमराह ने उस चरण में केवल एक ओवर फेंका था, इसलिए वेंकटेश अय्यर और मनीष पांडे की साझेदारी को तोड़ने की कोशिश करने के लिए (उन्हें) उसे फिर से खेल में लाने की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बस उन्हें साझेदारी में आगे बढ़ने और गति बढ़ाने दिया। इससे पहले कि आप यह जानें, उन्होंने गुरुसे में कोई शॉट नहीं खेला था और साझेदारी उस बिंदु तक पहुंच गई थी जहां जब वह आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुंबई इंडियंस के नेतृत्व की ओर से कई चौकाने वाले फैसले थे, जो जा रहा है समझना कठिन है, उन्होंने कहा।

## जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी: पहले ही दिन स्थान सुरक्षित किया

चुना जाना चाहिए था। वह अब पत्रकारों में भी फेल हो रहे हैं। लेकिन चोपड़ा ने ऑन एयर एंटी कोर्ट भी बात कहने से इनकार किया है और

ने ट्वीट किया, -आईपीएल नफरत, फर्जी खबरें... और हर तरह की बकवास फैलाने का सबसे अच्छा समय है। प्रशंसक-सेनाएं इसे हमेशा उठाने के लिए मौजूद रहती हैं। मुझे अक्सर आश्चर्य होता है कि क्या विचार/संगठन नैतिकता से अधिक महत्वपूर्ण है। केकेआर के खिलाफ ताजा हार के बाद एमआई इस सीजन में प्लेऑफ की दौड़ से लगभग बाहर हो गई है। रोहित के बल्ले से रनों की कमी, मध्यक्रम की फॉर्म और हार्दिक पंड्या की खराब कप्तानी के कारण इस सीजन में खूब कीचड़ है। पांच बार की चैंपियन 11 टी20 में सिर्फ 3 जीत के साथ 10 टीमों की तालिका में नौवें स्थान पर है। उनका अगला मुकाबला 6 मई को घरेलू मैदान पर सनराइजर्स हैदराबाद से होगा।

एजेंसी मुंबई। मुंबई, पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद के कई राइडर्स ने दो दिवसीय क्वालीफाइंग इवेंट में क्रमशः चिल्ड्रेन 1 डेसेज, चिल्ड्रेन 2 डेसेज, चिल्ड्रेन 2 शो जॉर्पिंग और जूनियर शो जॉर्पिंग श्रेणियों में जूनियर नेशनल घुड़सवारी चैंपियनशिप के लिए अपना स्थान सुरक्षित किया। यह आयोजन, इस वर्ष का दूसरा जूनियर नेशनल इन्फेस्ट्रियन क्वालीफायर, यहां महालक्ष्मी रेसकोर्स में एमेच्योर राइडर्स क्लब द्वारा आयोजित दो दिवसीय कार्यक्रम है। यह टूर्नामेंट भारतीय घुड़सवारी महासंघ (ईएफआई) के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है, जहां एथलीट डेसेज और शो जॉर्पिंग

चिल्ड्रेन 2 और जूनियर के लिए चिल्ड्रेन 1 और 2 की श्रेणियों में भाग ले रहे हैं। जेएनईसी चिल्ड्रेन 1 डेसेज श्रेणी में, इनारा मेहता ने दशा डीलक्स घोड़े की सवारी करते हुए 67.475 स्कोर किया। जेएनईसी चिल्ड्रेन 2 डेसेज श्रेणी में, तारिणी लोढ़ा ने अपने घोड़े बेल्वेडियर पर सवारी करते हुए

67.031 स्कोर किया। जेएनईसी चिल्ड्रेन 2 शो जॉर्पिंग श्रेणी में, आइजा मीर ने घोड़े डेलानो डब्ल्यू पर सवारी करते हुए 54.89 सेकंड का समय के साथ पहला स्थान हासिल किया। जेएनईसी जूनियर शो जॉर्पिंग वर्ग में, ध्रुवराज सिंह वाघेला ने घोड़े मास्टर फ्रैंकल पर सवारी करते हुए 74.48 सेकंड के समय के साथ पहला स्थान हासिल किया। परिणाम (रैंकिंग/खिलाड़ी का नाम (घोड़े का नाम/स्कोर): इनारा मेहता लुथरिया, दशा डीलक्स, 67.475 श्रेणी बच्चे 2 डेसेज तारिणी लोढ़ा, बेल्वेडियर, 67.031 श्रेणी बच्चे 2 शो जॉर्पिंग आइजा मीर, डेलानो डब्ल्यू, 54.89 सेकंड आइजा मीर, रिकोटा, 68.05 सेकंड फलिशा मिलन डेव, माफिया, 68.5 सेकंड फलिशा मिलन डेव, मास्टर फ्रैंकल, 69.43 सेकंड मिरका सोनी, वाइल्डफायर, 76.19 सेकंड वर्ग जूनियर शो जॉर्पिंग ध्रुवराज सिंह वाघेला, मास्टर फ्रैंकल, 74.48 सेकंड जाह्नवी रहेजा, लेमिबएक, 77 सेकंड जेडन डिस्जा, क्विस्परिंग सिल्वर, 80.58 सेकंड वेद सरकार, माफिया, 86.38 सेकंड।

## यूरोप टूर के लिए मप्र हॉकी अकादमी के तीन खिलाड़ियों का जूनियर भारतीय टीम में चयन

भोपाल। हॉकी इंडिया ने शनिवार को यूरोप टूर के लिए भारतीय टीम की घोषणा की है। भारतीय टीम में मध्यप्रदेश राज्य पुरुष हॉकी अकादमी के 03 खिलाड़ियों - अकिंत पाल, कुनेन दाद और तालीम प्रियो बाता का चयन हुआ है। भारतीय टीम नीदरलैण्ड और बेल्जियम में अभ्यास मैच खेलेगी। भारतीय टीम दिनांक 20 से 29 मई तक

यह दौरा करेगी। उल्लेखनीय है कि मप्र अकादमी के तीनों खिलाड़ी खेलते इंडिया यूथ गेम्स 2022 और जूनियर नेशनल के पदक विजेता खिलाड़ी हैं। यह पहला अवसर है जब एक साथ तीन खिलाड़ी भारतीय टीम में चयनित हुये हैं। मप्र राज्य पुरुष हॉकी टीम के प्रशिक्षक समीर दाद ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुये

अवगत कराया कि अकिंत पाल, कुनेन दाद और तालीम प्रियो बाता बहुत ही प्रतिभावाण खिलाड़ी हैं। निश्चित ही इस प्रतियोगिता से इन खिलाड़ियों का खेल निखरेगा। सभी खिलाड़ी मुख्य प्रशिक्षक समीर दाद और सहायक प्रशिक्षक लोकेन्द्र शर्मा और हबीब हसन के मार्गदर्शन में राज्य खेल अकादमी में प्रशिक्षणरत हैं।

## फास्ट न्यूज

### किसानों का 37.13 करोड़ का गन्ना भुगतान जारी

टीएम एक्शन इंडिया डोईवाला: डोईवाला शुगर मिल ने गन्ना किसानों के लिए 37 करोड़ 13 लाख 98 हजार रुपए का भुगतान जारी किया है। शुगर मिल के अधिशासी निदेशक दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड डोईवाला को 18 करोड़ 53 लाख 79 हजार रुपये, सहकारी गन्ना समिति देहरादून को 12 करोड़ 06 लाख 56 हजार रुपये, सहकारी गन्ना विकास समिति ज्वालपुर दो करोड़ 21 लाख 54 हजार, दशरथपुर सहकारी गन्ना विकास समिति रुड़की दो करोड़ 87 लाख 68 हजार रुपये, द पावटा वैली शुगर केन ग्रोवर्स को अपरेटिव सोसाइटी पावटा साहिब 94 लाख 26 हजार रुपये, द शाकुभरा शुगर केन ग्रोवर्स को अपरेटिव सोसाइटी पावटा साहिब 22 लाख 35 हजार रुपये व सहकारी गन्ना विकास समिति लखर को 27 लाख 80 हजार रुपये का भुगतान किया गया है। 21 जनवरी से 7 मार्च तक का भुगतान: उन्होंने बताया कि यह भुगतान 21 जनवरी से 7 मार्च तक का है। वहीं किसानों ने मिल की ओर से समस्त गन्ना भुगतान को लेकर मिल प्रबंधन का आभार जताया है। उत्तराखंड किसान एकता मंच के प्रदेश महामंत्री दरपान बोरा ने कहा कि मिल प्रबंधन की ओर से किसानों का समस्त भुगतान किए जाने के बाद अब किसानों की परेशानी दूर होगी।

### बागेश्वर के जंगलों की आग देवाल सीमा में पहुंची

टीएम एक्शन इंडिया देवाल: चमोली जनापद के कर्णप्रयाग से लगे नामनाथ, नंदप्रयाग, आटागड सहित आदिबदरी, गैरसैण के जंगलों में लगी आग कर्मियों को नाम नहीं ले रही है। कर्णप्रयाग से लगे नामनाथ रेंज के जंगल तीन दिनों से घेरे रहे हैं, लेकिन विभाग मूक बना है। उधर, सिमली से लगे सुंदरगांव, आदिबदरी के भल्लू, गैरसैण के जंगल भी आग से घेरे रहे हैं। नजर नहीं आ रही पहाड़ियां: आग का धुआं इस कदर वातावरण में बढ़ा है कि 50 से सौ मीटर दूर की पहाड़ियां नजर नहीं आ रही हैं। जिससे यात्राकाल में पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों को इस बार पहाड़ के तीर्थस्थलों में गर्मी के साथ पहाड़ी सुंदरता को आग के गुब्बारे के साथ कैद करना मजबूरी होगी। उधर, चमोली के कुमाऊं सीमा से लगे हिल स्टेशन देवाल के लिगडी में बागेश्वर कुमाऊं के जंगलों की आग पहुंचने से वन कर्मियों के पसीने छूट रहे हैं। पिछले दो दिन से कुमाऊं क्षेत्र के जनापद बागेश्वर के गढ़खेत दावों के जंगलों में भीषण आग लगी है।

# 'राम-कृष्ण की धरती पर नहीं चलेगा वोट जिहाद'

सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा-कांग्रेस पर लगाया भारत के इस्लामीकरण का आरोप

## निशाना साधा

▶▶ सीएम योगी ने कहा कि सपा और कांग्रेस ने मिलकर भारत के इस्लामीकरण की साजिश रची है

टीएम एक्शन इंडिया कानपुर। कांग्रेस नेता पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्रशीद की भतीजी का मुसलमानों से वोट जिहाद की अपील करना चुनाव में बड़ा मुद्दा बन गया है। फरुखाबाद के कमालगंज की जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम-कृष्ण की धरती पर वोट जिहाद नहीं चलेगा। उन्होंने समझाया भी कि वोट जिहाद नहीं होता, अपने अधिकार का प्रयोग करना होता है। कहा कि सपा और कांग्रेस ने मिलकर भारत के इस्लामीकरण की साजिश रची है।



वहीं उन्होंने कन्नौज संसदीय क्षेत्र के बिधुना की जनसभा में अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि लोग कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। फरुखाबाद के कमालगंज में दोपहर तीन बजे पार्टी प्रत्याशी मुकेश राजपूत के समर्थन में हुई जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने सपा, कांग्रेस

## सपा की सरकार में राममठों पर गोली चलती थी: सीएम योगी

बिधुना की सभा में मुख्यमंत्री कहा कि सपा की सरकार में राममठों पर गोली चलती थी। आज 500 वर्षों बाद अयोध्या में बने मंदिर में श्रीरामलला ने होली खेली। रामनवमी पर उनका सूर्य तिलक हुआ। क्या सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी यह कर सकती थी। आपके पूर्वजों द्वारा जो संपत्ति

अर्जित की गई है, वे उसे लेना चाह रहे हैं। क्या कोई भारतीय इसे स्वीकार करेगा? क्या आप स्वीकार करेंगे? उन्होंने रामलला और संत तुलसीदास का उल्लेख करते कहा कि मध्यकाल में तुलसीदास ने अकबर से मिलने और नवरत्नों में शामिल होने के प्रस्ताव को नकार दिया था।

खेली। रामनवमी पर उनका सूर्य तिलक हुआ। क्या सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी यह कर सकती थी। औरंगजेब के जजिया कर को लागू करना चाहती है कांग्रेस: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश में जनसभा कर सपा, कांग्रेस और बसपा पर जमकर

बोला। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में गुना-शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में चुनावी सभा उन्होंने कहा कि कांग्रेस विरासत टैक्स लगाना चाहती है, यानी लोगों पर जजिया कर लगाना चाहती है, जैसा कि औरंगजेब के जमाने में लगाया गया था।

## गोंडा की राजनीति में नया गुल खिलाएगी वृजभूषण व अजय



टीएम एक्शन इंडिया गोंडा: राजनीति का ऊंट कब किस करवट बैठ जाए, इसका पता किसी को नहीं है। कुछ ऐसे ही घटनाक्रम होते हैं जो राजनीति में भी हुए हैं। विधानसभा चुनाव में एक-दूसरे के राजनीतिक धुर विरोधी से लोकसभा चुनाव के दौरान दिखी जुगलबंदी राजनीति में नया गुल खिला सकती है। कैसरगंज से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में हुई नामांकन सभा में भी कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला। राजनीतिक जानकार इसे नए समीकरण का संकेत बता रहे हैं। कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में कैसे तो

पांच विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, लेकिन इस समय कर्नलगंज की चर्चा खूब हो रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने सीटिंग विधायक अजय प्रताप सिंह लल्ला भद्रा के स्थान पर अजय कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया था, इसके बाद राजनीति में एक-दूसरे के धुर विरोधी रहे अजय प्रताप सिंह व पूर्व मंत्री सपा नेता योगेश प्रताप सिंह साथ आ गए थे। अजय प्रताप सिंह के बेटे ने पूर्व मंत्री के लिए क्षेत्र में वोट भी मांगा था। जबकि, इस चुनाव में अजय कुमार सिंह के साथ कैसरगंज सांसद वृजभूषण सिंह खड़े रहे।

## कन्नौज में चढ़ा सियासी पारा, राहुल-अखिलेश करेंगे रोड शो



टीएम एक्शन इंडिया कन्नौज: लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे-जैसे निकट आ रही है, राजनीतिक पार्टियां एक-दूसरे पर हमले तेज कर रही हैं। जूबानी हमले से मतदाताओं को रिश्ताने में लगे हुए हैं। गर्मी के साथ-साथ प्रमुख दलों का प्रयासी पारा भी बढ़ रहा है। चौथे चरण में 13 मई को होने वाले चुनाव को लेकर कन्नौज में अमित शाह, मायावती और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हुंकार भरेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी रोड शो करेंगे। कन्नौज जनता से मतदान के लिए अपील करेंगे।

## जूबानी हमले

▶▶ रोड शो करेंगे राहुल-अखिलेश, अमित व मायावती की जनसभा, डिंपल-शिवपाल की भी होगी दस्तक

करेंगे। जगह भी चयनित नहीं हो पाई है। साथ ही शिवपाल यादव, डिंपल यादव, पूनम पंडित समेत अन्य सपा के प्रमुख नेता जनसभाएं करेंगे। इनकी अभी तारीख तय नहीं हो पाई है। आठ मई को अमित शाह करेंगे जनसभा: भाजपा मीडिया प्रभारी शरद मिश्र ने बताया कि आठ मई को तिवां विधानसभा में गृहमंत्री अमित शाह जनसभा करेंगे। बसपा जिलाध्यक्ष बबलू गौतम ने बताया कि नौ मई को तालग्राम ब्लाक के तेराजकेट में सुबह 11 बजे बसपा प्रमुख मायावती आएंगी। 10 मई राज्यसभा सांसद व उत्तर प्रदेश के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह दोपहर दो बजे जिला सचिव फैसल के समर्थन स्थित निजी गेस्ट हाउस में गठबंधन प्रत्याशी अखिलेश यादव के समर्थन में जनसभा करेंगे।

करेंगे। जगह भी चयनित नहीं हो पाई है। साथ ही शिवपाल यादव, डिंपल यादव, पूनम पंडित समेत अन्य सपा के प्रमुख नेता जनसभाएं करेंगे। इनकी अभी तारीख तय नहीं हो पाई है। आठ मई को अमित शाह करेंगे जनसभा: भाजपा मीडिया प्रभारी शरद मिश्र ने बताया कि आठ मई को तिवां विधानसभा में गृहमंत्री अमित शाह जनसभा करेंगे। बसपा जिलाध्यक्ष बबलू गौतम ने बताया कि नौ मई को तालग्राम ब्लाक के तेराजकेट में सुबह 11 बजे बसपा प्रमुख मायावती आएंगी। 10 मई राज्यसभा सांसद व उत्तर प्रदेश के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह दोपहर दो बजे जिला सचिव फैसल के समर्थन स्थित निजी गेस्ट हाउस में गठबंधन प्रत्याशी अखिलेश यादव के समर्थन में जनसभा करेंगे।

## कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है: सीएम धामी

टीएम एक्शन इंडिया

बदायूं: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी ने मिलकर बीमारू राज्य के रूप में पहचाने जाने वाले उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है। सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार इस पार्टी की पहचान बन चुकी है। राहुल गांधी के अमेठी छोड़कर राबरेली से चुनाव लड़ने का चुनाव पर कहा कि कांग्रेस की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। इसलिए राहुल अपनी सीट छोड़कर भाग रहे हैं। रोड शो के बाद मीडिया से की बात: भाजपा प्रत्याशी दुर्बिजय सिंह शाक्य के समर्थन में रोड शो शुरू



करने से पहले मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी माफिया मुक्त हो गया है। सपा शासन काल में कानून व्यवस्था की का बहुत बुरा हाल था। व्यापक यहाँ उद्योग लगाने से कतराते थे।

धामी ने कहा, अपराध खत्म हो जाने से आज यूपी में इन्वेस्टर्स की बूम है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग मोदी को रोकने का असफल प्रयास कर रहे हैं। अस्तित्व बचाने, भ्रष्टाचार को छिपाने और तुष्टिकरण को राजनीति करने वालों ने विपक्षी गठबंधन बनाया है, इनके सारे

## पवन सिंह को मिला जदयू नेताओं का सपोर्ट, होगी कार्रवाई

टीएम एक्शन इंडिया

कराकाट: कराकाट आसन लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरे निर्दलीय प्रत्याशी का साथ देना जदयू नेताओं को महंगा पड़ गया। रोहतस जिलाध्यक्ष अजय सिंह कुशवाहा द्वारा उन नेताओं को पार्टी से

निष्कासन का अनुरोध करते हुए प्रदेश अध्यक्ष को पत्र भेजा गया है। पत्र में जिलाध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि मुखिया सूर्यवंश सिंह, राजपुर प्रखण्ड अध्यक्ष झुना सिंह व जिला महा सचिव सुरज पासरी को अभिनेता से नेता बने निर्दलीय प्रत्याशी पवन

सिंह को सम्मानित करते देखे गए हैं। जो पार्टी विरोधी गतिविधि है। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह बिहार की कराकाट सीट से ताल टोकने का मन बना चुके हैं। हाल ही में उन्होंने इस लोकसभा क्षेत्र में रोड शो किया था। इसमें कई नेता नजर आए थे।

पवन सिंह को भाजपा ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से टिकट दिया था, लेकिन निजी कारणों का हवाला देते हुए भोजपुरी सुपरस्टार ने टिकट वापस कर दिया था। इसके बाद उन्होंने कराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का एलान किया।

## फरीदकोट के चुनावी रण में सितारे

टीएम एक्शन इंडिया

मोगा: फरीदकोट के चुनावी रण में अब फिल्मी सितारे उतरने शुरू हो गए हैं। आज आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कर्मजीत अनमोल के पक्ष में पंजाबी कलाकार सिपमी गिल, नीशा बानो, बीएन शर्मा और रुपिंदर रूबी पहुंचे हैं। सभी की तरफ से धर्मकोट विधानसभा क्षेत्र के अलग-अलग गांवों में चुनाव प्रचार किया गया है। लोगों में फिल्मी सितारों का क्रेज: प्रचार के दौरान लोगों में फिल्मी सितारों का क्रेज भी देखने को मिल रहा है। उनकी तरफ से कर्मजीत अनमोल को मेहनती, सुझावन और इमानदार कलाकार ही नहीं बताया बल्कि अच्छा समाज सेवी भी बताया जा रहा है। अनमोल ने कभी किसी के नाम का नहीं किया इस्तेमाल: बीएन शर्मा: इस दौरान बीएन शर्मा ने अपने एक संबोधन के दौरान कहा है कि कर्मजीत अनमोल ने कभी किसी के नाम का इस्तेमाल नहीं किया है। वह खुद के बल पर यहां तक पहुंचे हैं।



9999320707

**GARHWAL BAKERS**

Happiest days must be celebrated.....

**RAMLAL UNIYAL**  
921 22 73454

**SURESH UNIYAL**  
9999320707

A-57, Kewal Park, Main Road, Azadpur, Delhi-110033

[www.garhwalbakers.com](http://www.garhwalbakers.com)

## नौसेना ने फिर देवदूत बनकर मुसीबत में फंसे पाकिस्तानी की बचाई जान

टीएम एक्शन इंडिया नई दिल्ली: भारतीय नौसेना ने फिर देवदूत बनकर मुसीबत में फंसे पाकिस्तानी की जान बचाई। ईरानी नौका पर सवार पाकिस्तानी ने बचाने की गुहार लगाई थी। नौसेना के आईएनएस सुमेधा ने आपात संदेश पर तुरंत कार्रवाई करते हुए ईरानी नौका अल रहमानी पर सवार पाकिस्तानी चालक दल के सदस्य को चिकित्सा सहायता देकर उनकी जान बचाई। नौसेना इससे पहले



माचं में अरब सागर में ईरानी जहाज अल-कंबर का अपहरण करने वाले नौ समुद्री लुटेरों को आत्मसमर्पण के लिए विवश कर-के 23 पाकिस्तानियों को बचाया

## देवदूत

▶▶ अल रहमानी पर सवार पाकिस्तानी चालक दल के सदस्य को चिकित्सा सहायता देकर उनकी जान बचाई

था। अरब सागर में तैनात युद्धपोत आईएनएस सुमेधा ने मछली पकड़ने वाली ईरानी नौका अल रहमानी को 30 अप्रैल को रोका।

## भारत के भविष्य के लिए करें वोट : इन्द्रेश कुमार

टीएम एक्शन इंडिया लखनऊ: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य इन्द्रेश कुमार ने रविवार को कहा कि शहाबुद्दीन, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और अब्बास हमारे आदर्श नहीं हो सकते। रसखान, रहीम, कबीर, डा.एपीजे अब्दुल कलाम, मोहम्मद करीम खगला और वीर अब्दुल हमीद हमारे आदर्श हैं। इसलिए दंगा मुक्त हिन्दुस्तान के लिए और देश के भविष्य के लिए जाति एवं मजहब से ऊपर उठकर वोट करें। इन्द्रेश कुमार लखनऊ में अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के सभागार में आयोजित सर्व धर्म समभाव संगोष्ठी



को संबोधित कर रहे थे। संगोष्ठी का आयोजन सामाजिक सद्भाव लखनऊ विभाग की ओर से किया गया था। उन्होंने कहा कि केलाश मानसरोवर मुक्त हो, तिब्बत स्वतंत्र हो, पीओके हमारा हो, भारत अखण्ड हो इसके लिए वोट करें। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ चीन

बढ़ा तो हमने मुंहतोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान ने हरकत की तो सर्जिकल स्ट्राइक व एयर स्ट्राइक कर उसका जवाब दिया गया। आज भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। यह सब प्रभावी नेतृत्व की सरकार के कारण संभव हो सका है। उन्होंने कहा कि भारत निःस्वार्थ संस्कृति

का देश है। हमारी यात्रा परमार्थ की है। इसलिए हम विश्वगुरु कहलाये। भारत में परमार्थ की संस्कृति है। हमारे यहां कहा गया है कि जियो लेकिन दूसरों के लिए। हमने सबके सद्भाव की बात कही है। हमने किसी के अमंगल की बात नहीं की। कार्यक्रम को राज्य सूचना आयुक्त डॉ. दिलीप अग्निहोत्री ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बावन मंदिर अयोध्या के महंत वैदेही वल्लभ शरण महाराज ने की। उन्होंने कहा कि देश सर्वोपरि है। देशहित में ही सबका हित है। इसलिए हम लोगों को ऐसी सरकार बनानी है जो देशहित को सबसे ऊपर रखती हो।